



PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

19_11_2024 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED

- 1. RSS remarks case: veteran lyricist Javed Akhtar acquitted (GS Paper-II: Article 19(2))**
- 2. 'Very strange', says top court on unopposed election of 3,000 panchayat candidates in Punjab (GS Paper-II: Local Governance)**
- 3. As Chikungunya cases rise in Telangana, U.S. issues travel advisory (GS Paper-III: S&T)**
- 4. Lagacharla tribal people meet heads of NHRC, Women's Commission in Delhi (GS Paper-II: Statutory Bodies)**
- 5. Manipur as a case for imposing Article 356 (GS Paper-II: President Rule)**
- 6. No 'X factor' — reconciling freedom and accountability (GS Paper-II: Article 19)**
- 7. This time for Africa (GS Paper-II: India-Africa)**
- 8. How can design help a building be more climate-resilient? (GS Paper-III: Environment)**
- 9. SC Collegium proposes new Chief Justice for Manipur (GS Paper-II: Collegium System)**
- 10. Rajoana plea: SC calls for decision, Centre seeks adjournment (GS Paper-III: Mercy Power)**
- 11. Chennai-Vladivostok maritime corridor is operational: Sonowal (GS Paper-II: India-Russia)**

**Website: patrioticias.in
Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>**



12. Sanjay Murthy appointed new CAG (GS Paper-II: CAG)
13. Uma Dasgupta of Pather Panchali fame passes away (PCS)
14. SpaceX's Falcon-9 deploys Indian satellite into orbit (GS Paper-III: S&T)
15. Around 6.5 lakh applications come in for PM's Internship Scheme pilot project (GS Paper-II: Government schemes)
16. Hasina continuing political activities from India: Yunus
17. Tanvi Patri – Indian badminton's latest rising star



GS Paper II: Article 19

RSS remarks case: veteran lyricist Javed Akhtar acquitted

A Mumbai court has acquitted veteran lyricist Javed Akhtar in a **defamation case** against him over his alleged **objectionable remarks on Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) as the complainant has withdrawn the case**. Judicial Magistrate (First Class), Mulund, S.D. Chakkar, on November 8 disposed of the case as withdrawn. A copy of the order was made available on Monday. Advocate Santosh Dubey, who claims to be an RSS supporter, filed a complaint against Mr. Akhtar before the magistrate court in October 2021 for offences under **Sections 499 (defamation) and 500 (punishment for defamation) of the IPC.** PTI

शिकायतकर्ता ने मामला वापस ले लिया।

RSS remarks case: veteran lyricist Javed Akhtar acquitted आरएसएस टिप्पणी मामला: वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर बरी

Acquittal of Javed Akhtar in Defamation Case

जावेद अख्तर को मानहानि मामले में बरी किया गया

- A Mumbai court acquitted veteran lyricist **Javed Akhtar** in a defamation case against him. मुम्बई की एक अदालत ने **जावेद अख्तर** को उनके खिलाफ मानहानि के मामले में बरी कर दिया।
- The case was related to his **alleged objectionable remarks on the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)**. यह मामला उनके **संघ (RSS)** पर **आक्षेपजनक टिप्पणियों** से संबंधित था।
- The complainant **withdrew the case**.





- **Judicial Magistrate (First Class)**, Mulund, **S.D. Chakkar**, disposed of the case on **November 8, 2023**, as withdrawn.
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), मुलुंड, एस.डी. चक्कर ने 8 नवम्बर 2023 को मामले को वापस लेने के आधार पर निपटाया।
- A copy of the order was made available on **November 13, 2023**.
आदेश की एक प्रति 13 नवम्बर 2023 को उपलब्ध कराई गई।
- **Advocate Santosh Dubey**, who claims to be an RSS supporter, filed a complaint in October **2021**.
वकील संतोष दुबे, जो स्वयं को संघ का समर्थक बताते हैं, ने अक्टूबर 2021 में शिकायत दर्ज की थी।
- The complaint was filed under **Sections 499 (defamation) and 500 (punishment for defamation)** of the IPC.
शिकायत IPC की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत दर्ज की गई थी।

Defamation

- It is an act where a person by the use of freedom of speech and expression makes a false statement against an individual with the objective of harming the personal reputation or decreasing the respect or confidence of a person.
- Arguments in favor of decriminalizing defamation-
- as per several analysts, criminal defamation provisions end up imposing unreasonable restrictions on the freedom of speech and expression.
- Many people believe that criminal defamation is misused by the state and powerful people to curb legitimate criticism against their criticism.
- Dissent is an essential feature of democracy and this provision provides legitimate grounds to curb the same.
- It goes against the global trend of decriminalizing defamation.
- The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in 2011 called upon members to abolish defamation as it intimidates the citizens and makes them scared of exposing the wrongdoings by powerful people.
- **Arguments given by courts-**
- The reputation and dignity of individuals under Article 21 are as important as freedom of speech and expression.
- Criminal defamation is sanctioned as a reasonable restriction u/a 19(2).
- This law has been part of Indian law books for over 70 years and it has neither diluted a vibrant democracy nor abridged our free speech.



- Monetary compensation at times is not enough to cure harm done to a person's reputation.
- Mere misuse of law can not be a reason to declare it unconstitutional rather the executive and the lower judiciary should be sensitized to prevent its misuse.

'Very strange', says top court on unopposed election of 3,000 panchayat candidates in Punjab

GS Paper II: Local Governance

Pr
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday termed as "very strange" the fact that 3,000 out of 13,000 panchayat office-bearers were elected unopposed in the recently held polls in Punjab and permitted aggrieved candidates to file election petitions.

A Bench comprising Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar, which had earlier issued notices on a plea alleging rejection of nomination papers of many candidates and other electoral malpractices, said that the aggrieved persons can file election petitions before the election tribunal which has to decide them in six



The State Election Commission will decide the petitions within six months, in case of delay petitioners can approach the High Court
SC BENCH

months.

The top court said the candidates whose nomination papers were rejected or torn can also approach the Punjab and Haryana High Court with their grievances and their pleas cannot be rejected on the grounds of violation of the limitation period.

The CJI said the petitions have to be dealt with on merits.

"We permit the petitioner to file election petitions. The State Election Commission will decide the petitions within six months, in case of delay petitioners can approach the High Court," the order said.

During a brief hearing, the CJI expressed shock when the court was apprised that 3,000 odd posts in panchayat, out of over 13000, were elected unopposed. "This is very strange! I have never seen such figures... These are significant numbers," the CJI said.

The Bench, on October 18, issued notice on the plea filed by Sunita Rani and others alleging irregularities in the conduct of the Panchayat polls held on October 15.

'Very strange', says top court on unopposed election of 3,000 panchayat candidates in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ 3,000 ਪੰਚਾਯਤ
ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਕੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ
ਚੁਨੇ ਜਾਨੇ ਪਰ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਕਹਾ, 'ਯਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ'

Supreme Court's Remarks on Punjab Panchayat Polls

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਯਤ ਚੁਨਾਵੋਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ

- The Supreme Court on

Monday termed as "very strange" that 3,000 out of 13,000 panchayat office-bearers were elected unopposed in the recently held polls in Punjab.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में 13,000 पंचायत पदधारकों में से 3,000 को बिना विपक्ष के चुने जाने को "बहुत अजीब" करार दिया।

- The court permitted aggrieved candidates to file election petitions.
अदालत ने पीड़ित उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी।
- A Bench comprising Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar had earlier issued notices on a plea alleging rejection of nomination papers of many candidates and other electoral malpractices.





मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पहले कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के अस्वीकृति और अन्य चुनावी अनियमितताओं की शिकायत पर नोटिस जारी किया था।

- The aggrieved persons can **file election petitions** before the **election tribunal**, which must decide them within **six months**.

पीड़ित व्यक्तियों को चुनाव न्यायाधिकरण के सामने चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति है, जिसे छह महीने के भीतर निपटाना होगा।

- The Court stated that candidates whose nomination papers were **rejected or torn** can also approach the **Punjab and Haryana High Court** with their grievances.

अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अस्वीकृत या फाड़े गए थे, वे अपनी शिकायतों के साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख भी कर सकते हैं।

- The **CJI** emphasized that the pleas should be dealt with on their **merits**, and the **election petitions** must be decided within **six months**.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि याचिकाओं को उनके मूल मुद्दों पर ही निपटाया जाना चाहिए, और चुनाव याचिकाओं का निर्णय छह महीने के भीतर होना चाहिए।

- The **State Election Commission** will decide the petitions within **six months**; if there is any delay, petitioners can approach the **High Court**.

राज्य चुनाव आयोग छह महीने के भीतर याचिकाओं का निर्णय करेगा; यदि इसमें कोई देरी होती है, तो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

- During a brief hearing, the **CJI** expressed **shock** when informed that **3,000 posts out of 13,000** in panchayat were elected **unopposed**.

एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, **CJI** ने यह जानकर आश्चर्य व्यक्त किया कि पंचायत के **13,000** में से **3,000** पद बिना विपक्ष के चुने गए थे।

- The **CJI** said, "This is very strange! I have never seen such figures... These are significant numbers."

CJI ने कहा, "यह बहुत अजीब है! मैंने कभी ऐसे आंकड़े नहीं देखे... ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं।"

- The Bench had issued a notice on **October 18, 2023** regarding the plea filed by **Sunita Rani** and others, alleging irregularities in the conduct of the **Panchayat polls held on October 15**.

पीठ ने 18 अक्टूबर 2023 को सुनीता रानी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 15 अक्टूबर 2023 को हुए पंचायत चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।





As Chikungunya cases rise in Telangana, U.S. issues travel advisory

GS Paper III: S&T
Siddharth Kumar Singh
HYDERABAD

In response to the increasing chikungunya cases in Telangana, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has issued a 'Level 2' travel advisory for U.S. travellers returning from Telangana. "[The] CDC has identified a higher-than-expected number of chikungunya cases among the U.S. travellers returning from Telangana," the notice said.

The advisory, released on November 8, urges travellers to exercise enhanced precautions. This is the second CDC travel advisory for India this year, following a similar alert in August regarding a Zika virus outbreak in Maharashtra.

The CDC's travel advisory system categorises risks into four levels. Level 1 advises travellers to practise usual precautions, while Level 2 (as applied to Telangana now) calls for enhanced precautions. Level 3 urges reconsideration of non-essential travel and Level 4 recommends avoiding all travel. The current advisory reflects growing concerns over the spread of vector-borne diseases in the region.

"If you are pregnant, reconsider travel to the state of Telangana, India, particularly if you are close to delivering your baby. Mothers infected around the time of delivery can pass the virus to their baby before or during delivery. Newborns infected in this way or by a mosquito bite



Telangana reported 178 cases of chikungunya till August, surpassing last year numbers.

are at risk for severe illness, including poor long-term outcomes," the travel notice said.

Status unclear

Telangana's Health Department reported 178 chikungunya cases as of August 31, surpassing figures from previous years. However, no updated data has been released in the past three months, leaving the current situation unclear.

Chikungunya is a viral disease spread through mosquito bites, with symptoms typically appearing three to seven days after infection. Common symptoms include fever, joint pain, headache, muscle pain, joint swelling, and rash. While most individuals recover within a week, severe joint pain can persist for months or even years in some cases.

The disease has been reported in various regions, including Africa, Asia, Europe, the Americas, and the Indian and Pacific Oceans. People at higher risk of severe illness include newborns, older adults and those with pre-existing conditions.

As Chikungunya cases rise in Telangana, U.S. issues travel advisory

तेलंगाना में चिकनगुनिया के मामले बढ़ने के कारण अमेरिका ने यात्रा संबंधी सलाह जारी की

CDC Issues Travel Advisory for Telangana Due to Chikungunya

चिकनगुनिया के कारण तेलंगाना के लिए CDC ने यात्रा सलाह जारी की

• In response to the increasing **chikungunya** cases in **Telangana**, the **U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)** has issued a '**Level 2**' travel advisory for U.S. travellers returning from **Telangana**.

तेलंगाना में चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के कारण, यू.एस. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने तेलंगाना से लौट रहे यू.एस. यात्रियों के लिए 'लेवल 2' यात्रा सलाह जारी की है।

• The CDC notice stated that it has identified a **higher-than-expected number of chikungunya cases** among U.S. travellers returning from Telangana.

CDC के नोटिस में कहा गया है कि उसने तेलंगाना से लौटने वाले यू.एस. यात्रियों में चिकनगुनिया के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई है।

• The advisory, released on **November 8, 2023**, urges travellers to exercise **enhanced precautions**.

यह सलाह, जो **8 नवम्बर 2023** को जारी की गई, यात्रियों को **सावधानियों को सशक्त बनाने** की सलाह देती है।

• This is the second **CDC travel advisory** for **India** this year, following a similar alert in **August** regarding a **Zika virus outbreak** in **Maharashtra**.

यह इस वर्ष **भारत** के लिए **CDC यात्रा सलाह** का दूसरा मामला है, इसके पहले **अगस्त में महाराष्ट्र में ज़िका वायरस प्रकोप** के संबंध में इसी प्रकार की सलाह जारी की गई थी।

• The CDC's travel advisory system categorizes risks into **four levels**:

CDC का यात्रा सलाह प्रणाली जोखिमों को **चार स्तरों** में वर्गीकृत करती है:





- **Level 1:** Advises travellers to practice usual precautions.
स्तर 1: यात्रियों को सामान्य सतर्कता बरतने की सलाह देता है।
 - **Level 2:** Calls for enhanced precautions, as applied to **Telangana**.
स्तर 2: तेलंगाना में लागू होने पर सशक्त सावधानियों की सलाह देता है।
 - **Level 3:** Urges reconsideration of non-essential travel.
स्तर 3: गैर-आवश्यक यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह देता है।
 - **Level 4:** Recommends avoiding all travel.
स्तर 4: सभी यात्रा से बचने की सलाह देता है।
- The advisory reflects growing concerns over the spread of **vector-borne diseases** in the region.
यह सलाह क्षेत्र में **संवहनीय रोगों** के फैलने पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है।
 - The CDC travel notice includes a warning for pregnant women to reconsider travel to **Telangana**, especially if near delivery.
CDC यात्रा सलाह में गर्भवती महिलाओं को **तेलंगाना** यात्रा पर पुनर्विचार करने की चेतावनी दी गई है, खासकर यदि वे प्रसव के नजदीक हों।
 - The notice emphasizes that **mothers infected around delivery** can pass the virus to their babies, putting newborns at risk for severe illness.
नोटिस में यह भी कहा गया है कि **प्रसव के आसपास संक्रमित मां** अपने बच्चों को वायरस पास कर सकती हैं, जिससे नवजातों को गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है।
 - Telangana's Health Department reported **178 chikungunya cases** as of **August 31, 2023**, surpassing figures from previous years.
तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग ने **31 अगस्त 2023** तक **178 चिकनगुनिया मामलों** की रिपोर्ट दी, जो पिछले वर्षों के आंकड़ों से अधिक हैं।
 - However, no updated data has been released in the past **three months**, leaving the current situation unclear.
हालांकि, पिछले **तीन महीनों** में कोई अद्यतन डेटा जारी नहीं किया गया है, जिससे वर्तमान स्थिति अस्पष्ट है।
 - **Chikungunya is a viral disease spread through mosquito bites**, with symptoms appearing typically **3 to 7 days** after infection.
चिकनगुनिया एक वायरल रोग है जो **मच्छर के काटने** से फैलता है, और इसके लक्षण आमतौर पर संक्रमण के **3 से 7 दिन** बाद प्रकट होते हैं।
 - Common symptoms of chikungunya include **fever, joint pain, headache, muscle pain, joint swelling, and rash**.
चिकनगुनिया के सामान्य लक्षणों में **बुखार, जोड़ों में दर्द, सिरदर्द, पेशी दर्द, जोड़ों में सूजन, और रैश** शामिल हैं।



- While most individuals recover within a week, **severe joint pain** can persist for **months or years** in some cases.

जबकि अधिकांश व्यक्ति एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं, कुछ मामलों में **गंभीर जोड़ों का दर्द** महीनों या वर्षों तक बना रह सकता है।

- The disease has been reported in various regions, including **Africa, Asia, Europe, the Americas, and the Indian and Pacific Oceans.**

यह रोग विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें **अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, और भारतीय एवं पैसिफिक महासागर** शामिल हैं।

- People at higher risk of severe illness include **newborns, older adults, and those with preexisting conditions.**

गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम में रहने वाले लोग **नवजात, बुजुर्ग और पूर्व-मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं** वाले

Lagacharla tribal people meet heads of NHRC, Women's Commission in Delhi

GS Paper II: Statutory Bodies

PCS

HYDERABAD

Taking their plight to the notice of the rights panel, tribals of Lagacharla hamlet in Vikarabad district has called on the chiefs of national Scheduled Caste and Scheduled Tribe commissions, National Human Rights Commission and women's panel.

Accompanied by BRS MPs K.R. Suresh Reddy, V. Ravichandra and D. Damodar Rao, and former Minister Satyavathi Rathod, the victims poured out their woes on how they were allegedly targeted by the police after their protest



Tribal villagers from Lagacharla and neighbouring villages during a press conference in New Delhi on Monday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

against 'forcible' land acquisition for a Pharma Village project. They first met NHRC Chairperson Vijaya Bharati Sayani and narrated their woes. The tribal women met Kishor Mak-

wana, Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes; Antar Singh Arya, Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes; and Women's Commission chief

Vijaya Kishore Rahatkar.

Speaking to the media on Monday, they said they had been agitating against land acquisition for the last nine months. "When we are agitating, none of the Congress leaders came to meet us. But the Collector came to the village without any security and unknowingly our youth attacked him," they said. Taking the attack on the officials as a ruse, nearly 500 police personnel raided our tанда (hamlet) and indiscriminately started rounding up our men. They cut power supply and started assaulting the villagers, they lamented.

लोग शामिल हैं।





Lagacharla tribal people meet heads of NHRC, Women's Commission in Delhi

लगचार्ला आदिवासी लोग दिल्ली में एनएचआरसी, महिला आयोग के प्रमुखों से मिले

Tribal Protest Against Forced Land Acquisition in Vikarabad District

विकाराबाद जिले में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी विरोध

- Tribals from **Lagacharla hamlet in Vikarabad district** have taken their plight to the notice of the **rights panel**.
विकाराबाद जिले के लगचरला गांव के आदिवासियों ने अपनी समस्याओं को **अधिकार पैनल** के ध्यान में लाया है।
- They have called on the chiefs of **National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commissions, National Human Rights Commission, and the Women's Commission**.
उन्होंने **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और महिला आयोग** के प्रमुखों से मुलाकात की है।
- The tribals were accompanied by **BRS MPs K.R. Suresh Reddy, V. Ravichandra, and D. Damodar Rao**, and former Minister **Satyavathi Rathod**.
आदिवासियों के साथ **BRS सांसद K.R. सुरेश रेड्डी, V. रवीचंद्र, और D. दामोदर राव, तथा पूर्व मंत्री सत्यवथी राठौड़** भी थे।
- The victims explained how they were allegedly targeted by the police after their protest against '**forcible land acquisition**' for a **Pharma Village project**.
पीड़ितों ने बताया कि कैसे उन्हें पुलिस ने '**जबरन भूमि अधिग्रहण**' के खिलाफ उनके विरोध के बाद **फार्मा विलेज परियोजना** के लिए कथित रूप से निशाना बनाया।
- They first met **NHRC Chairperson Vijaya Bharati Sayani** and narrated their woes.
उन्होंने पहले **NHRC की अध्यक्ष विजय भारती सयानी** से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताईं।
- The tribal women also met **Kishor Makwana, Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes, Antar Singh Arya, Chairperson of the National Commission for Scheduled Tribes, and Vijaya Kishore Rahatkar**, head of the Women's Commission.
आदिवासी महिलाओं ने **किशोर माकवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अंतर सिंह आर्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और विजया किशोर रहटकर, महिला आयोग की अध्यक्ष** से भी मुलाकात की।





- Speaking to the media on **Monday**, they said they had been protesting against land acquisition for the last **nine months**.
सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिछले नौ महीनों से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध कर रहे थे।
- They claimed that when they were agitating, none of the **Congress leaders** came to meet them.
उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे विरोध कर रहे थे, तब कांग्रेस के नेताओं में से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया।
- The **Collector** came to the village without any security, and their youth **attacked him unknowingly**.
कलेक्टर बिना किसी सुरक्षा के गांव आए, और उनके युवाओं ने अनजाने में उन पर हमला किया।
- Taking the attack on the officials as a pretext, nearly **500 police personnel** raided their **tanda (hamlet)** and indiscriminately started rounding up their men.
अधिकारियों पर हमले को बहाना बनाते हुए, लगभग **500 पुलिसकर्मियों** ने उनके टांडा (गांव) पर छापा मारा और बिना भेदभाव के उनके पुरुषों को पकड़ने लगे।
- The police **cut power supply** and started **assaulting villagers**.
पुलिस ने बिजली की आपूर्ति काट दी और गांववासियों पर हमला करना शुरू कर दिया।
- The tribal victims expressed their frustration over the ongoing situation, citing the lack of support and increasing police actions.
आदिवासी पीड़ितों ने वर्तमान स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त की, जिसमें समर्थन की कमी और पुलिस की बढ़ती कार्रवाइयाँ शामिल हैं।

Article 342: Scheduled Tribes

Clause (1): President's Role in Declaring Scheduled Tribes

(राष्ट्रपति की अनुसूचित जनजातियों को घोषित करने की भूमिका)

1. The **President of India** has the authority to declare which tribes or tribal communities in a **State or Union Territory** will be considered Scheduled Tribes.
(भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करें।)
2. For a **State**, the President must consult the **Governor** before making such a declaration.
(किसी राज्य के लिए राष्ट्रपति को घोषणा करने से पहले राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक है।)
3. This declaration is made through a **public notification**.
(यह घोषणा एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है।)





Example (उदाहरण): A tribe like the Bhil in Rajasthan can be officially recognized as a Scheduled Tribe through this process.

(जैसे राजस्थान में भील जनजाति को इस प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जा सकती है।)

Clause (2): Parliament's Power to Modify the List

(सूची में संशोधन करने की संसद की शक्ति)

1. **Parliament** has the sole authority to:

(संसद के पास विशेष अधिकार है कि वह):

- **Add** new tribes or tribal communities to the Scheduled Tribe list.
(अनुसूचित जनजातियों की सूची में नई जनजातियों को जोड़े।)
- **Remove** existing tribes or tribal communities from the list.
(मौजूदा जनजातियों को सूची से हटाए।)

2. Once the President issues a notification under Clause (1), it **cannot be altered** by another notification. Any modification must be made **through a law passed by Parliament**.

(एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी हो जाने के बाद इसे किसी अन्य अधिसूचना से बदला नहीं जा सकता। संशोधन केवल संसद द्वारा कानून के माध्यम से किया जा सकता है।)

Key Changes to Article 342 (Amendments & Orders)

(अनुच्छेद 342 में मुख्य बदलाव: संशोधन और आदेश)

1. **1951 Amendment:** The term "Rajpramukh" (a title for governors in some princely states) was removed after India reorganized its states.

(1951 का संशोधन: "राजप्रमुख" शब्द को हटा दिया गया जब भारत ने अपने राज्यों का पुनर्गठन किया।)

2. **1956 Amendment:** References to "Part A or Part B states" (categories used in the early classification of states) were omitted after these classifications were abolished.

(1956 का संशोधन: "भाग A और भाग B राज्यों" का उल्लेख हटा दिया गया, क्योंकि ये वर्गीकरण समाप्त कर दिए गए।)

3. Various **Scheduled Tribes Orders**, such as the **1950 Order**, specify the tribes recognized as Scheduled Tribes in different states and union territories.

(विभिन्न "अनुसूचित जनजाति आदेश," जैसे 1950 का आदेश, अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्यता प्राप्त जनजातियों को सूचीबद्ध करता है।)

Practical Application:

(व्यावहारिक उपयोग):

- **Scheduled Tribes** are eligible for special benefits, such as **reservations in education**,





employment, and political representation, and other welfare schemes under the Constitution.

(अनुसूचित जनजातियाँ शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जैसी विशेष सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र होती हैं।)

- The list of Scheduled Tribes varies by state and union territory, acknowledging regional differences in tribal populations.

(अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार अलग-अलग होती है, जो क्षेत्रीय जनजातीय भिन्नताओं को मान्यता देती है।)

The National Commission for Scheduled Castes (SCs)

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

- The National Commission for Scheduled Castes (SCs) is a constitutional body as it is directly established by Article 338 of the Constitution.

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (SCs) एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत सीधे स्थापित किया गया है।

- On the other hand, other national commissions like the National Commission for Women (1992), National Commission for Minorities (1993), National Human Rights Commission (1993), and National Commission for Protection of Child Rights (2007) are statutory bodies established by acts of Parliament.

वहीं, अन्य राष्ट्रीय आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1993), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007) सांविधिक निकाय हैं जो संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

Evolution of the Commission

आयोग का विकास

1. Originally, Article 338 of the Constitution provided for the appointment of a Special Officer for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for SCs and STs and to report to the President.

मूल रूप से, संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था जो SCs और STs के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे।





2. The Special Officer was designated as the **Commissioner for SCs and STs** and assigned the said duty.
विशेष अधिकारी को **SCs और STs के लिए आयुक्त** के रूप में नामित किया गया और उपरोक्त कार्य सौंपा गया।
3. In **1978**, the government (through a **resolution**) set up a **non-statutory multi-member commission** for SCs and STs, while the office of the Commissioner for SCs and STs continued to exist.
1978 में, सरकार ने (एक **संकल्प** के माध्यम से) SCs और STs के लिए एक **गैर-सांविधिक बहु-सदस्यीय आयोग** की स्थापना की, जबकि SCs और STs के आयुक्त का कार्यालय बना रहा।
4. In **1987**, the government (through another resolution) modified the functions of the Commission and renamed it as the **National Commission for SCs and STs**.
1987 में, सरकार ने (एक अन्य **संकल्प** के माध्यम से) आयोग के कार्यों में संशोधन किया और इसका नाम **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग** रखा।
5. The **65th Constitutional Amendment Act of 1990** provided for the establishment of a **high-level multi-member National Commission for SCs and STs** in place of a single Special Officer for SCs and STs.
1990 के **65वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने SCs और STs के लिए एकल विशेष अधिकारी के स्थान पर एक **उच्च-स्तरीय बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग** की स्थापना का प्रावधान किया।
6. The **89th Constitutional Amendment Act of 2003** bifurcated the combined National Commission for SCs and STs into two separate bodies:
2003 के **89वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने संयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया:
 - **National Commission for Scheduled Castes** under **Article 338**.
 - **National Commission for Scheduled Tribes** under **Article 338-A**.
7. The separate **National Commission for SCs** came into existence in **2004**. It consists of:
 - A **Chairperson**
 - A **Vice-Chairperson**
 - Three other members appointed by the **President** by warrant under his hand and seal.अलग **अनुसूचित जाति आयोग 2004** में अस्तित्व में आया। इसमें शामिल हैं:
 - एक अध्यक्ष
 - एक उपाध्यक्ष
 - तीन अन्य सदस्य जिन्हें **राष्ट्रपति** द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त किया गया।



Manipur as a case for imposing Article 356

Manipur as a case for imposing Article 356

GS Paper II: President Rule

The state of Manipur reflects a classic case of the failure of the constitutional machinery, necessitating invocation of Article 356 by the President of India. The President need not wait for the report from the Governor because, under this Article, the President can act if, "otherwise", satisfied that a situation has arisen in which the government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. In Manipur, the unprecedented and horrific violence that erupted in May 2023, continues unabated.

B.R. Ambedkar, defining this extraordinary provision to the Constituent Assembly, on August 3, 1949 said, "I think I can well begin by reminding the House that it has been agreed by the House, where we were considering the general principles of the Constitution, that the Constitution should provide some machinery for the breakdown of the Constitution..." He further said, "I think as a necessary consequence to the introduction of article 277-A, we must also give liberty to the President to act even when there is no report by the Governor and when the President has got certain facts within his knowledge on which he thinks, he ought to act in the fulfilment of his duty."

Why Manipur is proving to be different

The President of India, Droupadi Murmu, has proved that she is conscious and sensitive about her constitutional functions. And she has the power coupled with duty to act as soon as possible. No State in India has seen such continuing violence among the common people. Violence on account of insurgencies did take place in Nagaland and Mizoram a long time ago and terrorism continues unabated in Jammu and Kashmir.

But Manipur is a different situation where the ordinary people are not only becoming victims of violence but are also being forced to indulge in violence to protect themselves.

It is important to refresh the nation with the lively debates on this Article in the Constituent Assembly proceedings of August 3-4, 1949. H.V. Kamath strongly opposed it, calling it as "A constitutional crime to empower the President to interfere", while Alladi Krishnaswami Ayyar defended saying, "In the first place, I would explain the reason why the Article has been put in[,] making it the duty of the Union 'to maintain the Constitution'... if there is any unit ... any



Dushyant Dave

Senior Advocate and a former President of the Supreme Court Bar Association of India

difficulty with regard to the proper working of the Constitution, it would be the obvious duty of the Union government to intervene and set matters right...."

K. Santhanam stated, "Now, let us broadly analyse the circumstances in which these Articles can come into operation. There may be a physical breakdown of the Government in the State, as for instance, when there is widespread internal disturbance or external aggression or for some reason or other, law and order cannot be maintained. In that case, it is obvious that there is no provincial authority which can function and the only authority which can function is the Central Government, and in that contingency these articles are not only unobjectionable but absolutely essential and without it the whole thing will be in chaos."

Thakur Das Bhargava said, "May I point out that the situation is one in which the entire machinery has failed, and ordinary people do not enjoy the common liberties? Internal disturbance to peace and tranquillity are all covered by this."

Dr Ambedkar again rose on August 4, 1949 and responded, "...The expression 'failure of machinery' I find has been used in the Government of India Act, 1935. Everybody must be quite familiar therefore with its de facto and de jure meaning..." and that, "...If at all they are brought into operation, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces." The Article was thus passed.

Article 355 obliges the Union to assist States to meet such challenges and one can assume that the Union government has indeed done so, though unsuccessfully.

Court's order

The Supreme Court of India in a Public Interest Litigation on May 8, 2023, passed an order merely recorded, "The Solicitor General states that as a consequence of the measures which have been adopted, no violence has been reported in the State during the course of the previous two days and the situation is gradually returning to normalcy." It laid stress on the point of "the need to preserve law and order and, in particular, to provide relief and rehabilitation" and observed that "utmost vigil should be maintained to ensure that there is no recurrence of violence".

The Court recorded assurance from the Union, "The Solicitor General has assured the Court that

the concerns which have been placed on the record in the petition and in the additional affidavits which have been filed in the proceedings, shall be duly taken note of and such remedial steps as are required would be adopted on a proactive basis." But in July 2023 the Court, suo motu, took notice of the incident of May 4 where women were paraded naked by a mob. It observed, "The Court is deeply disturbed by the visuals which have appeared in the media since yesterday depicting the perpetration of sexual assault and violence on women in Manipur. What is portrayed in the media would indicate gross constitutional violations and infractions of human rights. Using women as instruments for perpetrating violence is simply unacceptable in a constitutional democracy.

"This Court must be apprised of the steps which have been and shall be taken by the government to (i) hold the perpetrators accountable; and (ii) ensure that such incidents are not repeated."

Violence unabated

Between May 3 and November 11, 2024, more than 250 people have been killed and over a lakh of people displaced from their homes in the ethnic violence. Hundreds of temples, churches, homes and other places have been destroyed. Even on November 9, a mother of three was raped and killed and 17 houses set on fire.

Clearly, the Supreme Court's intervention was slow and ineffective despite there having been 27 hearings. It is shocking that under the watchful eyes of the ultimate protector of fundamental rights, the mayhem continues, depriving the three million people of Manipur of fundamental rights and their lives, liberty, dignity, and peace. Why have the top judges who were on the Bench been silent spectators? Does this not show that the Supreme Court is becoming weaker in recent years?

Sectarian violence in Manipur is a matter of concern for India. It is surprising and shocking that the government of Prime Minister Narendra Modi is not able to stop the carnage. Whatever may be its compulsions, it should have acted decisively a long time ago. The Prime Minister should have acted decisively to bring back peace, harmony, justice, relief and rehabilitation.

The situation demands the immediate intervention of the President. It is true that Article 356 has been more abused than used. But today, its invocation will be lauded nationally.

It is shocking that the mayhem in the State continues even under the watchful eyes of the ultimate protector of fundamental rights, the top court of the land


मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू करने का मामला

Manipur and the Failure of Constitutional Machinery

मणिपुर और संवैधानिक मशीनरी की विफलता



- The state of **Manipur** reflects a classic case of the failure of constitutional machinery, necessitating the invocation of **Article 356** by the **President of India**.
मणिपुर राज्य संवैधानिक मशीनरी की विफलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारा 356 का प्रयोग आवश्यक हो गया है।
- The **President** need not wait for the report from the **Governor** because, under **Article 356**, the President can act if satisfied that a situation has arisen in which the government of that state cannot function according to the Constitution.



राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार

करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 356 के तहत, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, तो राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं।

- The unprecedented and horrific **violence** in **Manipur** that erupted in **May 2023** continues unabated.

मणिपुर में मई 2023 में भड़की अद्वितीय और भयानक हिंसा अब भी जारी है।

- **B.R. Ambedkar**, defining this extraordinary provision to the **Constituent Assembly**, emphasized the necessity for the **President** to act even without a report from the **Governor**.

बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने इस असाधारण प्रावधान को **संविधान सभा** में परिभाषित किया, ने **राष्ट्रपति** को राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- The **President** has the power and duty to act promptly in such situations.
राष्ट्रपति के पास ऐसी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार और कर्तव्य है।
- **Manipur** presents a unique situation where ordinary people are not only victims of violence but are also forced to engage in violence to protect themselves.

मणिपुर एक अद्वितीय स्थिति प्रस्तुत करता है जहाँ सामान्य लोग न केवल हिंसा के शिकार हैं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए हिंसा में भी संलिप्त होने के लिए मजबूर हैं।

- The debates on **Article 356** in the **Constituent Assembly** on **August 3-4, 1949** were crucial in shaping its provisions.

संविधान सभा में 3-4 अगस्त 1949 को धारा 356 पर हुई बहस इस प्रावधान के निर्माण में महत्वपूर्ण थी।





- **H.V. Kamath** opposed the provision, calling it a "**constitutional crime**" to empower the President to interfere.
H.V. कमाथ ने इस प्रावधान का विरोध करते हुए इसे "संवैधानिक अपराध" कहा, जिसमें राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया।
- **Alladi Krishnaswami Ayyar** defended it, stating that it was the Union's duty to intervene if there was any difficulty in the working of the Constitution.
आलदी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यदि संविधान के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई हो, तो संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे।
- **K. Santhanam** analyzed the circumstances in which **Article 356** can come into operation, such as **internal disturbance or external aggression**.
K. संतानम ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जिनमें धारा 356 लागू हो सकती है, जैसे आंतरिक विघटन या बाहरी आक्रमण।
- **Thakur Das Bhargava** pointed out that the situation in **Manipur** is one where the **entire machinery has failed**, and ordinary people are deprived of their liberties.
ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि मणिपुर में स्थिति ऐसी है जहाँ पूरी मशीनरी विफल हो चुकी है, और सामान्य लोग अपनी स्वतंत्रताओं से वंचित हैं।

Dr. Ambedkar's Explanation and the Passage of Article 356

डॉ. अंबेडकर का व्याख्यान और धारा 356 का पारित होना

- **Dr. Ambedkar** rose again on **August 4, 1949**, and explained that the term "**failure of machinery**" was used in the **Government of India Act, 1935**, and that everyone must be familiar with its de facto and de jure meaning.
डॉ. अंबेडकर 4 अगस्त 1949 को फिर से उठे और बताया कि "मशीनरी की विफलता" शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया था, और हर किसी को इसके de facto और de jure अर्थ से परिचित होना चाहिए।
- **Dr. Ambedkar** hoped that if invoked, the **President would take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces**.
डॉ. अंबेडकर ने आशा जताई कि यदि धारा 356 लागू की जाती है, तो राष्ट्रपति को प्रांतों के प्रशासन को निलंबित करने से पहले उचित एहतियात बरतनी चाहिए।
- **Article 355** obliges the **Union** to assist States in meeting challenges and it is assumed that the **Union government** has tried, though unsuccessfully.
धारा 355 संघ को राज्यों को चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, और यह माना जाता है कि संघ सरकार ने प्रयास किए हैं, हालांकि वे असफल रहे हैं।

Court's Order on May 8, 2023

8 मई 2023 को उच्च न्यायालय का आदेश





- The **Supreme Court of India** in a **Public Interest Litigation** on **May 8, 2023**, recorded that the **Solicitor General** stated that no violence had been reported in the state in the last two days and that the situation was gradually returning to normalcy.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 मई 2023 को एक लोकहित याचिका में दर्ज किया कि सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राज्य में पिछले दो दिनों में कोई हिंसा नहीं हुई और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।
- The Court emphasized the need to **preserve law and order**, particularly **providing relief and rehabilitation**, and stated that **vigilance** should be maintained to avoid further violence.
उच्च न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से राहत और पुनर्वास प्रदान करने की बात की, और यह कहा कि आगे हिंसा को रोकने के लिए सतर्कता बनाए रखनी चाहिए।
- The Court recorded assurance from the **Union** that the concerns raised in the petition and affidavits would be duly noted, and necessary remedial steps would be adopted on a proactive basis.
न्यायालय ने संघ से आश्वासन दर्ज किया कि याचिका और हलफनामों में उठाए गए मुद्दों को उचित रूप से नोट किया जाएगा, और आवश्यक उपचारात्मक कदम सक्रिय रूप से उठाए जाएंगे।
- In **July 2023**, the Court suo motu took notice of the **May 4** incident where women were paraded naked by a mob, observing that it indicated gross violations of constitutional rights and human rights.
जुलाई 2023 में, न्यायालय ने 4 मई की घटना का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें महिलाओं को एक भीड़ द्वारा नग्न घुमाया गया था, और यह पाया कि यह संवैधानिक और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन था।
- The Court stressed that the government must take steps to **hold the perpetrators accountable** and prevent such incidents from happening again.
न्यायालय ने यह जोर दिया कि सरकार को **अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने** और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

Violence in Manipur

मणिपुर में हिंसा

- Between **May 3** and **November 11, 2024**, more than **250 people** have been killed, and over **one lakh** people displaced due to **ethnic violence**. Hundreds of temples, churches, homes, and other places have been destroyed.
3 मई से लेकर 11 नवंबर 2024 तक, 250 से अधिक लोग मारे गए हैं, और एक लाख से अधिक लोग जातीय हिंसा के कारण अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों मंदिर, चर्च, घर और अन्य स्थल नष्ट हो गए हैं।
- On **November 9, 2024**, a **mother of three was raped and killed**, and **17 houses** were set on fire, indicating that the violence continues unabated.





9 नवंबर 2024 को तीन बच्चों की माँ को बलात्कार और हत्या का शिकार किया गया, और 17 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंसा जारी है।

- Despite **27 hearings**, the **Supreme Court's** intervention has been slow and ineffective, with the violence continuing under the watchful eyes of the **ultimate protector of fundamental rights**.

27 सुनवाईयों के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय की हस्तक्षेप धीमी और अप्रभावी रही है, जबकि हिंसा मौलिक अधिकारों के अंतिम रक्षक की निगरानी में जारी है।

- The situation in **Manipur** has raised serious questions about the **Supreme Court's effectiveness in maintaining justice and peace**.

मणिपुर की स्थिति ने सर्वोच्च न्यायालय की न्याय और शांति बनाए रखने की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

Call for Presidential Intervention

राष्ट्रपति हस्तक्षेप की अपील

- The **sectarian violence** in **Manipur** is a major concern for **India**, and the **Prime Minister** should have acted decisively a long time ago to restore **peace, harmony, justice, relief, and rehabilitation**.

मणिपुर में संप्रदायिक हिंसा भारत के लिए एक प्रमुख चिंता है, और प्रधानमंत्री को शांति, सामंजस्य, न्याय, राहत और पुनर्वास बहाल करने के लिए बहुत पहले निर्णायक कदम उठाना चाहिए था।

- The situation now demands the **immediate intervention** of the **President**, and although **Article 356** has been abused in the past, its invocation today would be **lauded nationally**.

अब स्थिति में राष्ट्रपति का तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, और यद्यपि धारा 356 का अतीत में दुरुपयोग हुआ है, आज इसका उपयोग राष्ट्रव्यापी प्रशंसा प्राप्त करेगा।

ARTICLE 356: PRESIDENT'S RULE/STATE EMERGENCY

अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन/राज्य आपातकाल

1. When the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, it may be termed as a situation of failure of constitutional machinery.

जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है।



2. This situation may arise in certain other circumstances as well:

यह स्थिति कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में भी उत्पन्न हो सकती है:

- When the states fail to comply with the **executive directions of the Union. (Article 365)**
जब राज्य संघ के कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफल हो। (अनुच्छेद 365)
- When the states are under **external aggression or internal disturbance. (Article 355)**
जब राज्य बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के अधीन हो। (अनुच्छेद 355)
- The state government carries out **patently unconstitutional acts.**
जब राज्य सरकार अस्पष्ट रूप से असंवैधानिक कार्य करती हो।
- There is a **hung state assembly**, and no party or alliance has the possibility of forming the government.
जब विधानसभा त्रिशंकु हो और कोई पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में न हो।
- When the **ruling government resigns**, and no **alternate government** can be formed in the state.
जब सत्तारूढ़ सरकार इस्तीफा दे और कोई वैकल्पिक सरकार न बनाई जा सके।

Article 356

अनुच्छेद 356

3. It provides that the **President**, on satisfaction either on the **report of the Governor** or **otherwise**, may hold that the government of the state cannot be carried on in accordance with the **provisions of the Constitution.**

यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से प्राप्त संतोष के आधार पर यह मान सकते हैं कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।

4. In such a situation, the **President may invoke the provisions of Article 356.**
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के प्रावधानों का आह्वान कर सकते हैं।





5. This is also termed as **President's Rule** or **State Emergency**.

इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहा जाता है।

EFFECTS OF INVOKING ARTICLE 356

अनुच्छेद 356 को लागू करने के प्रभाव

1. **The Council of Ministers gets dismissed**, and the **President becomes empowered** to exercise **executive powers** with respect to that state. In other words, the **Union Government takes control** of the executive powers of the state.
मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति को उस राज्य के संबंध में कार्यकारी शक्तियां उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। यानी संघ सरकार राज्य की कार्यकारी शक्तियों का नियंत्रण ले लेती है।
2. **The President may further provide these powers** to some other authorities as well.
राष्ट्रपति इन शक्तियों को अन्य किसी प्राधिकरण को भी सौंप सकते हैं।
3. **The state legislature gets suspended**, and the **powers of the state legislature** get vested in the **Parliament of India**, or the **Parliament may provide this power** to the President or some other authority.
राज्य विधायिका को स्थगित कर दिया जाता है, और राज्य विधायिका की शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं या संसद ये शक्तियां राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है।
4. This situation is called a **state of suspended animation**. The **state assembly may even be dissolved**, but only after the **approval of the Parliament**.
इस स्थिति को निलंबित स्थिति (Suspended Animation) कहा जाता है। राज्य विधानसभा को विघटित भी किया जा सकता है, लेकिन यह संसद की मंजूरी के बाद ही संभव है।

SAFEGUARDS

सुरक्षात्मक प्रावधान



- Every proclamation under Article 356 must be approved by both houses of the Parliament **within 2 months** of making the proclamation.

अनुच्छेद 356 के तहत प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए।

- If during this proclamation, the Lok Sabha is dissolved, the Rajya Sabha shall provide the approval within 2 months, and the Lok Sabha should do so within 1 month of its reassembly.

यदि इस घोषणा के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, तो राज्यसभा इसे 2 महीने के भीतर मंजूरी देगी, और लोकसभा को इसके पुनर्गठन के 1 महीने के भीतर ऐसा करना होगा।

- All these resolutions should be approved by the Parliament with a simple majority.

संसद में इन सभी प्रस्तावों को सरल बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

- After the 44th Constitutional Amendment Act, the proclamation, once approved, shall remain in effect for 6 months and may be extended by further approval from the Parliament for 6 months at a time.

44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, एक बार मंजूर की गई घोषणा 6 महीने तक प्रभावी रहेगी और इसे संसद की अतिरिक्त मंजूरी से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।**

- The maximum duration under the President's rule can be three years.

राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष हो सकती है।

- If the President's rule needs to be extended beyond 1 year, it must fulfill two conditions:

यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो, तो दो शर्तों को पूरा करना होगा:

- The proclamation of emergency under Article 352 shall be in place in the whole of India or in the whole or any part of the state.

अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पूरे भारत या राज्य के किसी हिस्से में लागू होनी चाहिए।**



- Certificate from the Election Commission of India (ECI) on the difficulty in holding elections in the state.

चुनाव आयोग से राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।**

- Before the 44th Constitutional Amendment Act, the proclamation, once approved by the Parliament, would remain in force till **revoked by a subsequent order of the President.**

44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले, संसद द्वारा एक बार मंजूर की गई घोषणा तब तक लागू रहती थी, जब तक कि इसे राष्ट्रपति के आगामी आदेश से रद्द नहीं किया जाता।**

- A law made by the Parliament during the operation of Article 356 shall **continue to remain in force unless repealed or altered by the Parliament or the state legislature.**

अनुच्छेद 356 के लागू रहने के दौरान संसद द्वारा बनाया गया कानून तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाता।

ISSUES ASSOCIATED WITH THE USE OF ARTICLE 356

अनुच्छेद 356 के उपयोग से संबंधित समस्याएं

1. According to Dr. B.R. Ambedkar, Article 356 would be a **dead letter** in the Constitution, but it has been invoked more than **120 times** since the **commencement of the Constitution**, making it the most **dreaded letter** in the Constitution.

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, अनुच्छेद 356 संविधान में मृत अक्षर (Dead Letter) होगा, लेकिन इसे संविधान लागू होने के बाद से अब तक **125 से अधिक बार** लागू किया गया है, जिससे यह संविधान का सबसे **भयावह प्रावधान** बन गया है।**

2. No **liberal federal democratic constitution** has provisions similar to Article 356.

किसी भी उदारवादी संघीय लोकतांत्रिक संविधान में अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधान नहीं हैं।



3. The provision itself was **borrowed from the Government of India Act, 1935**, and the leaders of the **Indian Freedom Struggle** were opposed to the introduction of such provisions by the British.

यह प्रावधान स्वयं भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता ब्रिटिशों द्वारा ऐसे प्रावधानों के परिचय का विरोध कर रहे थे।

4. The term **failure of constitutional machinery is vague and subjective**, making it prone to **misuse**.

संवैधानिक तंत्र की विफलता (Failure of Constitutional Machinery) शब्द अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ है, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना रहती है।**

5. As a result, **frivolous and arbitrary grounds** have often been invoked to impose Article 356.

परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए अक्सर तुच्छ और मनमाने आधार पर कार्रवाई की गई है।

6. For example, this provision has been invoked several times when there was a **change in the party in power at the center**.

उदाहरण के लिए, यह प्रावधान तब कई बार लागू किया गया जब केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का परिवर्तन हुआ।**

7. The **governor's reports** are often **manipulated** to the advantage of the **party in power at the center**.

राज्यपाल की रिपोर्ट्स को अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के लाभ के लिए प्रभावित किया जाता है।

S.R. Bommai vs. Union of India Case (1994)

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994)

- The Supreme Court passed one of the most significant judgments on the misuse of **Article 356**, forming a **9-judge bench** to examine its various aspects.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक सुनाया और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए 9-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया।





- **Judicial Review** of the President's proclamation under Article 356 was upheld, allowing the court to revoke it if invoked arbitrarily.
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के घोषणापत्र की **न्यायिक समीक्षा** को मान्यता दी गई, जिससे अदालत इसे मनमाने ढंग से लागू होने पर रद्द कर सकती है।
- The burden lies on the **Centre** to prove that relevant material justifies the proclamation.
केंद्र पर यह साबित करने का भार है कि प्रासंगिक सामग्री घोषणापत्र को सही ठहराती है।
- The court cannot question the **Council of Ministers' advice** but can scrutinize the grounds for such advice.
अदालत **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन ऐसी सलाह के आधारों की जांच कर सकती है।
- The existence of **relevant material** must justify invoking Article 356; irrelevant or extraneous grounds render it invalid.
अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए **प्रासंगिक सामग्री** की उपस्थिति अनिवार्य है; अप्रासंगिक या बाहरी आधार इसे अमान्य बना देते हैं।
- The power under Article 356 is **exceptional** and should be used sparingly in **special situations**.
अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति **विशेष परिस्थितियों** में **असामान्य रूप** में और सीमित रूप से उपयोग की जानी चाहिए।
- When a new political party assumes power at the Centre, it cannot dismiss state governments formed by other parties.
जब केंद्र में नई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, तो वह अन्य पार्टियों द्वारा गठित राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकती।
- **State Legislature dissolution** should only occur after **Parliamentary approval**, and the assembly should remain in **suspended animation** until then.
राज्य विधानमंडल का विघटन केवल **संसदीय स्वीकृति** के बाद होना चाहिए, और तब तक विधानसभा को **निलंबित स्थिति** में रखा जाना चाहिए।





- If the government loses its majority in the assembly, a **floor test** should decide its strength, not the governor's discretion.

यदि सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, तो इसकी स्थिति का निर्णय **फ्लोर टेस्ट** के माध्यम से होना चाहिए, न कि राज्यपाल के विवेक से।

- Secularism was upheld as a **Basic Feature** of the Constitution, and anti-secular state politics can invite action under Article 356.

धर्मनिरपेक्षता को संविधान की **मूल विशेषता** के रूप में माना गया, और राज्य में धर्मविरोधी राजनीति पर अनुच्छेद 356 लागू हो सकता है।

Recent Judgments on Article 356

अनुच्छेद 356 पर हाल के फैसले

- In a historic judgment, the Supreme Court restored the **dismissed Arunachal Pradesh government**, stating that invoking Article 356 was arbitrary.

ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने **बर्खास्त अरुणाचल प्रदेश सरकार** को बहाल किया और कहा कि अनुच्छेद 356 को मनमाने तरीके से लागू किया गया था।

- In **Uttarakhand (2016)**, the court quashed the proclamation and revived the dismissed state government, citing **irrelevant material** used for consideration.

उत्तराखंड (2016) में, अदालत ने घोषणापत्र को खारिज कर बर्खास्त राज्य सरकार को बहाल कर दिया, क्योंकि विचार के लिए **अप्रासंगिक सामग्री** का उपयोग किया गया था।

- These judgments act as a **warning** to the Central Government to avoid misusing Article 356 due to ideological differences with state governments.

ये फैसले केंद्र सरकार को **चेतावनी** देते हैं कि वह राज्य सरकारों के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न करे।

Instances Where the Use of Article 356 May Be Considered as an Abuse of Power

जहाँ Article 356 के प्रयोग को शक्ति के दुरुपयोग के रूप में माना जा सकता है





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

1. In case of corruption by the state council of ministers.
यदि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा भ्रष्टाचार किया जाए।
2. Small instances of riots, and disturbance to the public order in the state.
राज्य में दंगों और सार्वजनिक व्यवस्था में छोटे-छोटे व्यवधान।
3. Mere loss of majority for the party in power in the state.
राज्य में सत्ताधारी पार्टी के लिए केवल बहुमत का नुकसान।
4. Change of the government in power at the center.
केंद्र में सत्ताधारी सरकार का परिवर्तन।

Reasons for the Decline in the Use of Article 356 After the 1990s

1990 के दशक के बाद Article 356 के उपयोग में कमी के कारण

1. Judicial Activism starting from SR Bommai Case.
एस.आर. बोम्मई मामले से शुरू हुआ न्यायिक सक्रियता।
2. Era of coalition politics.
गठबंधन राजनीति का युग।
3. Presidential activism.
राष्ट्रपति की सक्रियता।



No 'X factor' — reconciling freedom and accountability

GS Paper II: Article 19

It is important to understand that the **freedom of speech** is not a laissez-faire act where anything goes, but a democratically enabling idea that shuns censorship and the curbing of ideas being debated in the public sphere. Recently, the British media outlet, *The Guardian*, took a decision to stop posting on the **social media platform X (formerly Twitter)**, from its official handles.

The British legacy media organisation issued a statement that needs to be read carefully. It read: "This is something we have been considering for a while given the **often-disturbing content promoted or found on the platform, including far-right conspiracy theories and racism**. The U.S. presidential election campaign served only to underline what we have considered for a long time: that X is a toxic media platform and that its owner, Elon Musk, has been able to use its influence to shape political discourse."

Not the first case

It is pertinent to remember that *The Guardian* is not the first major news organisation to leave the social media platform. In the United States, the NPR became the first major English-language news outlet to leave X in April 2023, in protest at Musk's ownership. Another public broadcaster PBS followed suit. A report in the Nieman Lab, based on an internal memo of the NPR, revealed that traffic had dropped by only a single percentage point as a result of leaving X. In September 2023, Mashable carried a report that explained how X is losing its daily active users under the leadership of Mr. Musk.

Why should we look at this development closely and unpack the arguments put forth by Mr. Musk? First, it is not just some of the legacy media organisations such as NPR, PBS and *The*



A.S. Panneerselvan

a Fellow at Roja Muthiah Research Library, Chennai

The Guardian's decision to step away from X may be a first step towards restoring accountability in the public sphere

Guardian that have left the social media platform due to its intrinsic toxic content. Hate speech watchdog, The Center for Countering Digital Hate, (CCDH), quit the platform citing concerns that "upcoming changes to the platform's terms of service could hinder the nonprofit's ability to prevail in court battles". Under the new terms, all legal disputes related to X will be brought exclusively in the U.S. District Court for the Northern District of Texas or state courts in Tarrant County, Texas. The CCDH's statement reveals the looming danger: "Now, the billionaire will be able to bring lawsuits to friendly courts against whoever disagrees with him on his platform. We made the decision to leave X because the platform has declined further."

These developments are happening when legacy media is under severe financial strain and social media platforms are witnessing an enviable technology-enabled reach. Research shows how social media algorithms and fake news are connected. They are fuelled by the new partisan owners of these platforms. These platforms cite freedom of speech to perpetuate hate, disinformation, misinformation and chaos. Most of the retweets of Mr. Musk prioritise free speech over truth and social responsibility. The idea of reconciling freedom and responsibility is absent in his narrative.

Democracy and credible information

There is an organic relationship between a vibrant democracy and a credible information ecology. This writer has written extensively elsewhere on the role played by the media in helping people make informed choices. The idea of choosing something based on evidence is central to legacy media; and the idea of pushing someone's whims and fancies through

technological manipulations is the operative element of social media platforms. When we are talking about the pitfalls of the algorithm-driven social media, we are not whitewashing the failures of legacy media. The blinkers in the legacy media are manifold: the echo chamber, the revenue crunch, the shift from extensive reporting to focus on opinions, and its strategic silences on key issues. The strategic silences vary for different countries: it can be Gaza for the western media and the dilution of Article 370 for the Indian media. But social media platforms do not provide an answer to these vexatious questions. On the other hand they tend to conflate issues, eradicate the space for reconciliation and healing, and valorise the aggrandisement of power at the cost of empowerment. It is indeed true that legacy media does get influenced by the immense reach of social media.

Findings of a study

A study by Julia Cagé, Professor, Department of Economics, Sciences Po, Paris, and her team showed how X sets the agenda for the mainstream media and how journalists' reliance on X might distort the information they produce when compared to what citizens actually need. This study casts doubts on the business model of the legacy media as well as on the welfare effects of the platforms. It questioned whether citizens would be better informed in the absence of X, and whether social media may be harmful to both journalism and democracy. By weaponising social media as a vital symbol of freedom of speech, we are undermining a crucial aspect that governs our public sphere — accountability. *The Guardian's* decision may be a first step towards restoring accountability.

No 'X factor' — reconciling freedom and accountability

कोई 'एक्स फैक्टर' नहीं - स्वतंत्रता और जवाबदेही में सामंजस्य

The Freedom of Speech and Social Media Platform X

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X

- **Freedom of speech** is not a laissez-faire act where anything goes, but a **democratically enabling idea** that rejects censorship and the suppression of ideas debated in the public sphere.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई "लैस्से-फेयर" कृत्य नहीं है जहाँ सब कुछ जायज़ हो, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक रूप से सक्षम विचार है जो सेंसरशिप और सार्वजनिक क्षेत्र में विचारों को दबाने का विरोध करता है।

- Recently, the British media outlet, **The Guardian**, decided to stop posting on the social media platform **X** (formerly Twitter) from its official handles.





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

हाल ही में, ब्रिटिश मीडिया संगठन, **The Guardian** ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करना बंद करने का निर्णय लिया।

- The Guardian issued a statement saying it had been considering this decision for a while, citing disturbing content on the platform, including **far-right conspiracy theories** and **racism**.

The Guardian ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि उन्होंने यह निर्णय कुछ समय से विचार किया था, और प्लेटफॉर्म पर **दूर-दराज के साजिश सिद्धांत** और **नस्लवाद** जैसे disturbing सामग्री का हवाला दिया।

- The statement also highlighted that the **U.S. presidential election campaign** served to underline the platform's toxicity and the influence of its owner, **Elon Musk**, on political discourse.

बयान में यह भी बताया गया कि **अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान** ने इस प्लेटफॉर्म की विषाक्तता और इसके मालिक, **एलोन मस्क** के राजनीतिक संवाद पर प्रभाव को उजागर किया।

Not the First Case

यह पहला मामला नहीं है

- **The Guardian** is not the first major news organization to leave X. In April 2023, **NPR** became the first major English-language news outlet to leave in protest against Musk's ownership.

The Guardian पहली प्रमुख समाचार संगठन नहीं है जिसने X को छोड़ा है। अप्रैल 2023 में, **NPR मस्क** के स्वामित्व के विरोध में **पहला प्रमुख अंग्रेजी-भाषा समाचार आउटलेट** बना जो X छोड़ दिया।

- Another public broadcaster, **PBS**, followed suit after NPR's departure.

PBS, एक और सार्वजनिक प्रसारक, ने NPR के बाद X छोड़ दिया।

- A report by **Nieman Lab**, based on an internal memo from NPR, revealed that the traffic dropped by only **one percentage point** after leaving X.

Nieman Lab की एक रिपोर्ट, जो NPR के एक आंतरिक मेमो पर आधारित थी, ने खुलासा किया कि X छोड़ने के बाद ट्रैफिक में केवल **एक प्रतिशत** की कमी आई।

- In **September 2023**, **Mashable** reported that X is losing its daily active users under the leadership of **Elon Musk**.

सितंबर 2023 में, **Mashable** ने रिपोर्ट किया कि X **एलोन मस्क** के नेतृत्व में अपनी **दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं** को खो रहा है।

Why This Development is Important

इस विकास को क्यों ध्यान से देखना चाहिए

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





- It is not just legacy media organizations like **NPR**, **PBS**, and **The Guardian** that have left **X** due to its toxic content, but also organizations like the **Center for Countering Digital Hate (CCDH)**.

यह केवल **NPR**, **PBS**, और **The Guardian** जैसे पारंपरिक मीडिया संगठन नहीं हैं, जिन्होंने **X** को इसके विषाक्त सामग्री के कारण छोड़ा है, बल्कि **Center for Countering Digital Hate (CCDH)** जैसे संगठनों ने भी इसे छोड़ा है।

- The **CCDH** quit the platform citing concerns that changes to the platform's terms of service could hinder its ability to prevail in court battles.

CCDH ने प्लेटफॉर्म के शर्तों में बदलाव का हवाला देते हुए इसे छोड़ा, जिससे संगठन की अदालतों में मुकदमे जीतने की क्षमता में अड़चन आ सकती थी।

- Under the new terms, all legal disputes related to **X** will be brought exclusively in the **U.S. District Court for the Northern District of Texas** or **state courts in Tarrant County, Texas**.

नए शर्तों के तहत, **X** से संबंधित सभी कानूनी विवाद केवल **U.S. District Court for the Northern District of Texas** या **Tarrant County, Texas** के राज्य न्यायालयों में लाए जाएंगे।

- The **CCDH's** statement reveals the looming danger, stating that **Elon Musk** will be able to bring lawsuits to **friendly courts** against anyone who disagrees with him on the platform.

CCDH के बयान में एक खतरे का संकेत दिया गया है, जिसमें कहा गया कि **एलोन मस्क** अपने प्लेटफॉर्म पर किसी से असहमत होने पर **मित्रवत न्यायालयों** में मुकदमे दर्ज कर सकेंगे।

- The **CCDH** decided to leave **X** because the platform's situation has **further declined**. **CCDH** ने **X** को छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि प्लेटफॉर्म की स्थिति **और अधिक बिगड़ गई** है।

Social Media, Legacy Media, and the Spread of Misinformation

सोशल मीडिया, पारंपरिक मीडिया और गलत जानकारी का प्रसार

- **Legacy media** is under severe **financial strain**, while **social media platforms** are witnessing an **enviable technology-enabled reach**.

पारंपरिक मीडिया गंभीर वित्तीय दबाव में है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्रौद्योगिकी-सक्षम पहुंच का अनुभव कर रहे हैं।

- **Research** shows how **social media algorithms** and **fake news** are connected, fueled by the new **partisan owners** of these platforms.

अनुसंधान यह दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम और फर्जी खबरें एक-दूसरे से जुड़ी हैं, जो इन प्लेटफॉर्मों के नए पक्षपाती मालिकों द्वारा ईंधन प्राप्त करती हैं।

- These platforms cite **freedom of speech** to perpetuate **hate, disinformation, misinformation, and chaos**.





ये प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देते हुए घृणा, गलत सूचना, फर्जी खबरें, और अराजकता को बढ़ावा देते हैं।

- Most of the **retweets** of **Mr. Musk** prioritize **free speech** over **truth** and **social responsibility**.

Mr. Musk के अधिकांश रिट्वीट स्वतंत्रता को सत्य और सामाजिक जिम्मेदारी से ऊपर प्राथमिकता देते हैं।

- The idea of reconciling **freedom** and **responsibility** is absent in his narrative. उनके विचार में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का सामंजस्य का विचार अनुपस्थित है।

Democracy and Credible Information

लोकतंत्र और विश्वसनीय सूचना

- There is an **organic relationship** between a vibrant **democracy** and a credible **information ecology**.

एक जीवंत लोकतंत्र और विश्वसनीय सूचना पारिस्थितिकी के बीच एक जैविक संबंध है।

- The role of **legacy media** is central to helping people make **informed choices** based on evidence.

पारंपरिक मीडिया की भूमिका साक्ष्यों के आधार पर लोगों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने में केंद्रीय है।

- **Social media platforms** push someone's whims and fancies through **technological manipulations**, which contrasts with legacy media's emphasis on evidence-based choices.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकीय हेरफेर के माध्यम से किसी के मनमाने विचारों को बढ़ावा देते हैं, जो पारंपरिक मीडिया के साक्ष्य-आधारित विकल्पों के जोर के विपरीत है।

- While discussing the pitfalls of **algorithm-driven social media**, we are not **whitewashing** the failures of **legacy media**.

एल्गोरिदम-प्रेरित सोशल मीडिया के खतरे पर चर्चा करते हुए हम पारंपरिक मीडिया की विफलताओं को माफी नहीं दे रहे हैं।

- **Legacy media** has its own flaws: **echo chambers**, **revenue crunch**, shift from **extensive reporting** to focusing on **opinions**, and **strategic silences** on key issues.

पारंपरिक मीडिया की अपनी कमियाँ हैं: एको चेम्बर, राजस्व संकट, विस्तृत रिपोर्टिंग से राय पर ध्यान केंद्रित करना, और प्रमुख मुद्दों पर सामरिक मौन।

- **Strategic silences** differ across countries: for example, **Gaza** for the Western media and **Article 370** dilution for Indian media.

सामरिक मौन देशों में भिन्न होते हैं: उदाहरण के लिए, पश्चिमी मीडिया के लिए गाजा और भारतीय मीडिया के लिए धारा 370 का लचीला होना।

- **Social media platforms** do not provide answers to these complex questions; rather, they conflate issues and hinder **reconciliation** and **healing**.





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन जटिल सवालों का उत्तर नहीं देते हैं; बल्कि वे मुद्दों को मिला देते हैं और सुलह और चंगा करने में बाधा डालते हैं।

- It is true that **legacy media** gets influenced by the immense reach of **social media**. यह सच है कि पारंपरिक मीडिया को सोशल मीडिया की विशाल पहुंच से प्रभावित होती है।

Findings of a Study

एक अध्ययन के निष्कर्ष

- A study by **Julia Cagé**, Professor at the **Department of Economics, Sciences Po, Paris**, and her team, showed how **X** sets the **agenda** for **mainstream media** and how journalists' reliance on **X** might distort the information they produce.
जूलिया कैज द्वारा किया गया एक अध्ययन, जो आर्थिक विभाग, साइंसेज पो, पेरिस की प्रोफेसर हैं, और उनकी टीम ने यह दिखाया कि कैसे **X** मुख्यधारा मीडिया के लिए एजेंडा तय करता है और पत्रकारों का **X** पर निर्भरता उनके द्वारा उत्पन्न जानकारी को कैसे विकृत कर सकती है।
- This study questioned the **business model** of legacy media and the welfare effects of the platforms.
इस अध्ययन ने पारंपरिक मीडिया के व्यवसाय मॉडल और प्लेटफार्मों के कल्याण प्रभावों पर सवाल उठाया।
- The study asked whether citizens would be **better informed** without **X**, and whether **social media** might be harmful to both **journalism** and **democracy**.
अध्ययन ने यह सवाल उठाया कि क्या नागरिक **X** के बिना बेहतर सूचित होंगे, और क्या सोशल मीडिया पत्रकारिता और लोकतंत्र दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है।
- By weaponizing social media as a vital symbol of **freedom of speech**, we are undermining a crucial aspect of the public sphere—**accountability**.
सोशल मीडिया को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में हथियार बना कर, हम सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू—जवाबदेही को कमजोर कर रहे हैं।
- **The Guardian's** decision to leave **X** may be the first step towards restoring **accountability**.

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





The Guardian का X को छोड़ने का निर्णय जवाबदेही को बहाल करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

GS Paper II: India-Africa

This time for Africa

India must take forward its commitment to Africa, the Global South

Prime Minister Narendra Modi's visit to Nigeria, and his ongoing tours to Brazil, for the G-20, and Guyana, are important not only for ties with each of these countries but also significant as a statement on India's commitment to the Global South. In the Abuja visit, the first after then Prime Minister Manmohan Singh's 2007 visit, where the two countries declared a Strategic Partnership, Mr. Modi and Nigerian President Bola Ahmed Tinubu reaffirmed ties in areas including defence cooperation. Mr. Modi identified terrorism, separatism, piracy and drug trafficking as challenges for the two countries to work together on. Receiving Nigeria's 'the Grand Commander of the Order of the Niger', Mr. Modi, the second foreign dignitary to receive the distinction, dedicated the award to the people of India and to the 'long-standing, historical friendship between India and Nigeria'. India was among the countries that sent teachers and doctors to Nigeria after its independence from Britain in 1960. The Indian community is over 60,000-strong – India's largest diaspora in West Africa, and a bridge builder. The two countries have strong economic ties in a region where India has often been faulted for not doing more: about 200 Indian companies have invested about \$27 billion, in pharma, health care, agriculture and energy, where both countries share low-cost technologies and experiences as they tackle similar chronic issues of poverty, pollution and population density. Nigeria is among the top African economies in GDP. It is now a BRICS partner country. The conversations will continue, as both leaders travelled to Rio De Janeiro for the G-20 in Brazil, and where the African Union was inducted as a G-20 member in 2023.

While India's voluble commitment to the Global South and South-South cooperation has been appreciated, particularly in Africa, it also has been seen as short on follow-through at times. Its leadership of the third iteration of "Voice of the Global South" (VoGS) conference this year has seen lack-lustre participation. India's plans to use the platform to feed into the G-20 processes may find more engagement if it allows the G-20 host each year to take over the hosting of the VoGS summit. The India-Africa Forum summit, last held in 2015, is also overdue, and it is hoped that New Delhi moves, as the Foreign Secretary promised at a briefing on Mr. Modi's visit, to hold it early next year. As India shores up ties across the Southern hemisphere, and builds common cause with countries that are important when it comes to the debate over global governance, food, energy and health security, it must be seen to match its ideals with nimble footwork and a decided presence across the developing world, as is evidenced by the Prime Minister's travels this week.

This time for Africa

इस बार अफ्रीका के लिए

India must take forward its commitment to Africa, the Global South

भारत को अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना होगा

Prime Minister Modi's Visit to Nigeria and Global South Commitment

प्रधानमंत्री मोदी का नाइजीरिया दौरा और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता

- Prime Minister Narendra Modi's visit to Nigeria, along with his ongoing tours to Brazil (for the G-20) and Guyana, are significant not only for ties with these countries but also as a statement on India's commitment to the Global South.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया दौरा, साथ ही उनका ब्राजील (G-20 के लिए) और गियाना दौरा, इन देशों के साथ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारत की ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी हैं।

- During the Abuja visit, the first after Prime Minister Manmohan Singh's 2007 visit, where the two countries declared a Strategic Partnership, Mr. Modi and Nigerian President Bola Ahmed Tinubu reaffirmed ties, particularly in defence cooperation.

अबुजा दौर के दौरान, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2007 के दौर के बाद पहला था,

जहां दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, श्री मोदी और नाइजीरियाई

राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने रक्षा सहयोग सहित संबंधों की पुनः पुष्टि की।

- Mr. Modi identified challenges such as terrorism, separatism, piracy, and drug trafficking for both countries to work on together.

श्री मोदी ने पहचान की कि दोनों देशों को मिलकर काम करने के लिए आतंकवाद,

संप्रदायवाद, समुद्री डकैती, और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे चुनौतियाँ हैं।

- Mr. Modi received Nigeria's 'Grand Commander of the Order of the Niger', becoming the second foreign dignitary to receive the distinction.





श्री मोदी ने नाइजीरिया का 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' सम्मान प्राप्त किया, और यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे दूसरे विदेशी व्यक्ति बने।

- He dedicated the award to the **people of India** and to the **long-standing, historical friendship between India and Nigeria**.

उन्होंने यह पुरस्कार भारत के लोगों और भारत और नाइजीरिया के बीच दीर्घकालिक, ऐतिहासिक मित्रता को समर्पित किया।

- **India was among the countries** that sent **teachers and doctors** to Nigeria after its independence from **Britain in 1960**.

भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त के बाद नाइजीरिया में शिक्षक और चिकित्सक भेजे थे।

- The **Indian community** in Nigeria is over **60,000 strong**, making it **India's largest diaspora in West Africa**, acting as a **bridge-builder**.

नाइजीरिया में भारतीय समुदाय 60,000 से अधिक मजबूत है, जो पश्चिम अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और एक सेतु निर्माणकर्ता के रूप में कार्य करता है।

- The two countries have **strong economic ties**: about **200 Indian companies** have invested approximately **\$27 billion** in sectors like **pharma, healthcare, agriculture, and energy**.

दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं: लगभग 200 भारतीय कंपनियों ने फार्मा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, और ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग \$27 बिलियन का निवेश किया है।

- The countries share **low-cost technologies** and experiences as they tackle similar chronic issues like **poverty, pollution, and population density**.

दोनों देश कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों और अनुभवों को साझा करते हैं क्योंकि वे गरीबी, प्रदूषण, और जनसंख्या घनत्व जैसी समान स्थायी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

- **Nigeria is among the top African economies in GDP** and is now a **BRICS partner country**.

नाइजीरिया जीडीपी में शीर्ष अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अब यह BRICS साझीदार देश बन चुका है।

- The conversations between **Mr. Modi** and **President Tinubu** will continue as both leaders travel to **Rio de Janeiro** for the **G-20 in Brazil**, where the **African Union** was inducted as a **G-20 member in 2023**.

श्री मोदी और राष्ट्रपति टिनूबू के बीच संवाद जारी रहेगा क्योंकि दोनों नेता ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G-20 के लिए यात्रा करेंगे, जहां अफ्रीकी संघ को 2023 में G-20 सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

India's Commitment to the Global South

भारत की ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता





- India's **commitment to the Global South** and **South-South cooperation** has been appreciated, particularly in **Africa**, though it has sometimes been criticized for **lack of follow-through**.

भारत की ग्लोबल साउथ और साउथ-साउथ सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की गई है, विशेष रूप से अफ्रीका में, हालांकि कभी-कभी इसे कार्यवाही की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

- India's leadership of the **third iteration of the "Voice of the Global South" (VoGS) conference** this year has seen **lackluster participation**.

इस साल "ग्लोबल साउथ की आवाज़" (VoGS) सम्मेलन के तीसरे संस्करण की भारत की नेतृत्वता में निरुत्साहित भागीदारी देखी गई है।

- India's plans to use the VoGS platform to feed into the **G-20 processes** may see more engagement if it allows the **G-20 host** each year to take over the hosting of the **VoGS summit**.

भारत की योजना है कि VoGS मंच का उपयोग करके वह G-20 प्रक्रियाओं में योगदान दे, और इसमें अधिक जुड़ाव हो सकता है यदि वह G-20 मेज़बान को हर साल VoGS सम्मेलन की मेज़बानी करने की अनुमति देता है।

- The **India-Africa Forum summit**, last held in **2015**, is overdue, and it is hoped that New Delhi will hold it early next year, as promised by the **Foreign Secretary** during **Mr. Modi's visit**.

इंडिया-अफ्रीका फोरम सम्मेलन, जो आखिरी बार 2015 में आयोजित हुआ था, अब तक लंबित है, और उम्मीद की जाती है कि नई दिल्ली इसे अगले साल की शुरुआत में आयोजित करेगा, जैसा कि विदेश सचिव ने श्री मोदी के दौरे के दौरान वादा किया था।

- As India strengthens ties across the **Southern hemisphere** and builds common cause with countries that are important in debates over **global governance, food, energy, and health security**, it must match its ideals with **nimble footwork** and a **decided presence** across the developing world.

जैसे-जैसे भारत दक्षिणी गोलार्ध में अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और उन देशों के साथ सामूहिक कारण बना रहा है जो वैश्विक शासन, खाद्य, ऊर्जा, और स्वास्थ्य सुरक्षा पर बहसों में महत्वपूर्ण हैं, उसे अपनी आदर्शों को चतुर चारों ओर विकासशील देशों में निर्णायक उपस्थिति के साथ मेल खाना चाहिए।

- This is evidenced by **Prime Minister Modi's travels** this week.

यह प्रधानमंत्री मोदी के इस सप्ताह के दौरे से प्रमाणित होता है।





GETTY IMAGES

How can design help a building be more climate-resilient?

High-performance buildings are at the forefront of sustainable construction, focusing on energy efficiency, resource conservation, and climate resilience through integrative design and the use of sustainable materials; they employ passive and active strategies to minimise environmental impact

GS Paper III: Environment

Sandhya Patil

High-performance buildings (HPBs) are at the forefront of sustainable construction, tackling urgent needs like energy efficiency, climate resilience and resource conservation. As climate change intensifies, resources become scarcer, and urbanisation increases, HPBs – built to consume less energy, conserve resources, and withstand unpredictable weather – are an important part of achieving and keeping sustainable living.

Building an HPB requires key practices such as integrative design, lifecycle-based materials, efficient energy and water management, performance monitoring, and climate-resilient features.

What is integrative design?

At the core of HPBs is an integrative design approach that encourages architects, engineers, sustainability consultants, and building owners to work together and set measurable performance goals. These goals might aim for, say, 90% daylighting in occupied spaces or cooling in 700 sq. ft. per tonne of air-conditioning in commercial buildings. This approach ensures all building systems – air-conditioning, lighting, and building envelope components like walls, roofs, and windows – work together smoothly.

Digital modelling also plays a crucial role by creating a virtual representation of the project, allowing the team to predict performance outcomes, guide optimal system sizing, and test different strategies. With simulations, the team can adjust their strategies to meet energy-saving and thermal comfort goals before construction even begins. This predictive approach helps achieve high operational efficiency, improves resilience, and reduces long-term costs.

An example of an integrative design process in HPBs is the early use of passive design strategies, whereby designers make the most of natural sunlight and plan to use materials that retain heat (thermal mass). These strategies reduce

heating and cooling demands, allowing designers to choose equipment of the right size.

What makes materials sustainable?

Materials need to be durable, energy-efficient, and prioritise occupant health. HPBs in particular prefer materials with low embodied carbon (emissions produced during manufacturing) and high recycled content. A life-cycle assessment is often used to evaluate a material's environmental impact and reveal the most sustainable options.

Additionally, HPBs use low-emission interior materials to improve indoor air quality by reducing the concentration of volatile organic compounds (harmful substances that can easily evaporate into the air). This creates a healthier environment for occupants and improves building performance.

For example, for the upcoming Indian Institute of Human Settlements (IIHS) campus in Bengaluru, planners are using a life-cycle cost analysis to evaluate materials for comfort, durability, and the cost of envelope materials, including their impact on cooling equipment size and energy use over 50 years.

How can buildings use less energy?

Buildings account for about 40% of the total energy consumption of 580 million terajoules – equivalent to 13,865 million tonnes of oil over their lifespans, primarily for operational needs. Reducing this demand requires both passive and active strategies.

Passive design strategies tap into natural light, optimise building orientation, and take advantage of thermal mass to reduce the need for artificial lighting, heating, and cooling. These strategies must be tailored to the local climate and the building's specific needs, ensuring efficient operation without heavy reliance on mechanical systems.

On the active side, HPBs use energy-efficient HVAC systems, lighting,

and appliances supported by smart technologies like automated lighting control and occupancy sensors that allow real-time energy monitoring and optimisation. The Infosys Hyderabad campus was India's first HPB to have a radiant cooling HVAC system that combines daylighting controls and task-lighting to minimise energy use.

A key goal for HPBs is net-zero energy, a.k.a. net-positive energy performance: they generate as much or more energy than they consume. Advances in affordable solar and wind technology make it easier to achieve this goal and reduce fossil fuel use.

How do HPBs save water?

Water scarcity is a critical issue nationwide, and HPBs address it by conserving and reusing water and fine-tuning quality. Efficient fixtures like low-flow faucets and dual-flush toilets reduce water use while rainwater harvesting apparatuses collect rainwater for non-potable uses like irrigation and sanitation.

On-site wastewater treatment systems also increase efficiency by recycling greywater for irrigation and treating blackwater with biological systems like constructed wetlands and sewage treatment plants. HPBs also incorporate green infrastructure elements such as permeable paving and bioswales to manage stormwater and cool urban heat-islands. Infosys campuses in India, for example, recycle 100% of their wastewater using a water management system and aerobic membrane bioreactor, earning them zero-discharge status.

Why is monitoring important?

Performance monitoring helps ensure an HPB meets design goals and operates efficiently. Using advanced monitoring systems, an HPB tracks energy consumption, water use, and indoor environmental quality in real-time. This data helps facility managers identify inefficiencies and implement corrective

action. Continuous performance assessments can also validate the design and inform future projects.

For example, the second annex of the IIHS Bengaluru campus uses a network of smart devices plus controls linked to an artificial intelligence to optimise thermal regulation.

How can HPBs handle climate risks?

HPBs are built to withstand unpredictable weather like extreme heat and flash floods – beginning with careful site selection and flood protection measures. Durable materials and diverse energy systems enhance structural resilience while passive survivability ensures the structures are habitable even during a power outage. Renewable energy systems also provide backup power, and rainwater harvesting and onsite treatment systems ensure water doesn't run low.

For example, the Infosys Crescent building in Bengaluru is designed to use far less energy than typical office buildings. It serves about 8,000 people and uses only 75 kWh of energy per sq.m each year, while most offices use between 150 and 200 kWh. With 90% of the space air-conditioned, the building's advanced cooling system requires 3 W per sq. ft versus the usual 4-5 W in regular offices. This shows how smart design can save energy and reduce costs without increasing building expenses.

Taken together, HPBs set the standard for buildings this century and benchmarks for sustainability and resilient built-environments. In addition to their benefits for the climate and lowering operational costs, they improve real estate value. As the practices underlying their construction and operation become more widespread, the goal should be to make all buildings HPBs. Sandhya Patil is a sustainability expert with the Indian Institute for Human Settlements and anchors technical assistance for ASSURE. The author does not have any financial interests vested with any company or organisation that would benefit from this article



How can design help a building be more climate-resilient?

डिज़ाइन किसी इमारत को जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने में कैसे मदद कर सकता है?

High-performance buildings are at the forefront of sustainable construction, focusing on energy efficiency, resource conservation, and climate resilience through integrative design and the use of sustainable materials; they employ passive and active strategies to minimize environmental impact

उच्च प्रदर्शन वाली इमारतें टिकाऊ निर्माण में सबसे आगे हैं, जो एकीकृत डिजाइन और टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा दक्षता, संसाधन संरक्षण और जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करती हैं; वे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निष्क्रिय और सक्रिय रणनीतियों को अपनाती हैं।

High-Performance Buildings (HPBs) and Sustainable Construction

उच्च-प्रदर्शन वाले भवन (HPBs) और सतत निर्माण

- High-performance buildings (HPBs) are at the forefront of sustainable construction, addressing urgent needs like energy efficiency, climate resilience, and resource conservation.

उच्च-प्रदर्शन वाले भवन (HPBs) सतत निर्माण के अग्रणी हैं, जो ऊर्जा दक्षता, जलवायु लचीलापन, और संसाधन संरक्षण जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं।

- As climate change intensifies, resources become scarcer, and urbanization increases, HPBs are essential for sustainable living, as they consume less energy, conserve resources, and withstand unpredictable weather.

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, संसाधन दुर्लभ होते जा रहे हैं, और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, HPBs सतत जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं, संसाधनों को बचाते हैं, और अनिश्चित मौसम का सामना करते हैं।

- Building an HPB requires key practices such as integrative design, lifecycle-based materials, efficient energy and water management, performance monitoring, and climate-resilient features.

HPB बनाने के लिए प्रमुख प्रथाएँ आवश्यक हैं जैसे इंटीग्रेटिव डिज़ाइन, लाइफसाइकल-आधारित सामग्री, कुशल ऊर्जा और जल प्रबंधन, प्रदर्शन निगरानी, और जलवायु-लचीले फीचर्स।





What is Integrative Design?

इंटीग्रेटिव डिज़ाइन क्या है?

- At the core of HPBs is an **integrative design approach** that encourages **architects, engineers, sustainability consultants, and building owners** to work together and set measurable **performance goals**.

HPBs के केंद्र में एक इंटीग्रेटिव डिज़ाइन दृष्टिकोण है जो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सततता सलाहकारों, और भवन मालिकों को एक साथ काम करने और मापने योग्य प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है।

- These performance goals might include **90% daylighting** in occupied spaces or **cooling in 700 sq. ft. per tonne** of air-conditioning in commercial buildings.

इन प्रदर्शन लक्ष्यों में कब्जे वाले स्थानों में 90% प्राकृतिक प्रकाश या वाणिज्यिक भवनों में 700 वर्ग फीट प्रति टन एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडा करना शामिल हो सकते हैं।

- The integrative design approach ensures that all building systems — **air-conditioning, lighting, and building envelope components like walls, roofs, and windows** — work together smoothly.

इंटीग्रेटिव डिज़ाइन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सभी भवन प्रणालियाँ — एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, और भवन के आवरण के घटक जैसे दीवारें, छतें, और खिड़कियाँ — एक साथ सुचारु रूप से काम करें।

- **Digital modelling** plays a crucial role by creating a virtual representation of the project, predicting performance outcomes, guiding optimal system sizing, and testing different strategies.

डिजिटल मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परियोजना का वर्चुअल प्रतिनिधित्व बनाकर, प्रदर्शन परिणामों की भविष्यवाणी करके, सर्वोत्तम प्रणाली आकार का मार्गदर्शन करके और विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण करके।

- With simulations, the team can adjust their strategies to meet **energy-saving and thermal comfort goals** before construction even begins.

सिम्युलेशन के साथ, टीम अपने रणनीतियों को ऊर्जा-बचत और तापीय आराम लक्ष्य को पूरा करने के लिए समायोजित कर सकती है, इससे पहले कि निर्माण भी शुरू हो।

- This **predictive approach** helps achieve high **operational efficiency**, improves **resilience**, and reduces **long-term costs**.

यह भविष्यवाणी आधारित दृष्टिकोण उच्च संचालन क्षमता प्राप्त करने में मदद करता है, लचीलापन बढ़ाता है, और दीर्घकालिक लागतों को कम करता है।

- An example of an integrative design process in HPBs is the **early use of passive design strategies**, where designers make the most of **natural sunlight** and plan to use materials that retain heat (thermal mass).





HPBs में इंटीग्रेटिव डिज़ाइन प्रक्रिया का एक उदाहरण है प्रारंभिक रूप से पैसिव डिज़ाइन रणनीतियों का उपयोग, जिसमें डिज़ाइनर प्राकृतिक सूर्यप्रकाश का अधिकतम उपयोग करते हैं और उन सामग्रियों का उपयोग करने की योजना बनाते हैं जो गर्मी को बनाए रखें (थर्मल मास)।

- These strategies reduce **heating and cooling demands**, allowing designers to choose equipment of the right size.

ये रणनीतियाँ हीटिंग और कूलिंग मांगों को कम करती हैं, जिससे डिज़ाइनरों को उचित आकार का उपकरण चुनने की अनुमति मिलती है।

What makes materials sustainable?

सामग्री को सतत क्या बनाता है?

- **Materials** need to be **durable, energy-efficient**, and prioritize **occupant health**. HPBs prefer materials with **low embodied carbon** (emissions produced during manufacturing) and **high recycled content**.

सामग्री को दीर्घकालिक, ऊर्जा-कुशल, और आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। HPBs उन सामग्रियों को पसंद करते हैं जिनमें कम अव्यक्त कार्बन (निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाला उत्सर्जन) और उच्च पुनर्नवीनीकरण सामग्री होती है।

- A **life-cycle assessment** is often used to evaluate a material's **environmental impact** and reveal the most **sustainable options**.

एक लाइफ-साइकल मूल्यांकन का उपयोग अक्सर किसी सामग्री के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने और सबसे सतत विकल्पों को उजागर करने के लिए किया जाता है।

- HPBs use **low-emission interior materials** to improve **indoor air quality** by reducing the concentration of **volatile organic compounds** (harmful substances that can easily evaporate into the air).

HPBs कम-उत्सर्जन आंतरिक सामग्री का उपयोग करते हैं ताकि इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (हानिकारक पदार्थ जो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं) की सांद्रता को कम किया जा सके।

- This creates a **healthier environment** for occupants and improves **building performance**.

यह निवासियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करता है और भवन प्रदर्शन को सुधारता है।

- For example, for the upcoming **Indian Institute of Human Settlements (IIHS)** campus in **Bengaluru**, planners are using a **life-cycle cost analysis** to evaluate materials for **comfort, durability**, and the cost of **envelope materials**, including their impact on **cooling equipment size and energy use over 50 years**.

उदाहरण के लिए, आगामी भारतीय मानव बस्तियों संस्थान (IIHS) परिसर के लिए बेंगलूर में, योजनाकार लाइफ-साइकल लागत विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं ताकि सुविधा, दीर्घकालिकता, और आवरण सामग्री





की लागत का मूल्यांकन किया जा सके, जिसमें कूलिंग उपकरण के आकार और ऊर्जा उपयोग पर इसके प्रभाव को 50 वर्षों तक शामिल किया गया है।

How can buildings use less energy?

भवन कैसे कम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं?

- **Buildings** account for about **40%** of the total energy consumption of **580 million terajoules** — equivalent to **13,865 million tonnes of oil** over their lifespans, primarily for **operational needs**.

भवन कुल ऊर्जा खपत का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं, जो 580 मिलियन टैराजूल्स है — जो उनके जीवनकाल के दौरान 13,865 मिलियन टन तेल के बराबर है, मुख्य रूप से संचालन की आवश्यकताओं के लिए।

- Reducing this demand requires both **passive** and **active strategies**.

इस मांग को कम करने के लिए निष्क्रिय और सक्रिय रणनीतियों दोनों की आवश्यकता होती है।

- **Passive design strategies** tap into **natural light**, optimize **building orientation**, and take advantage of **thermal mass** to reduce the need for artificial lighting, heating, and cooling.

निष्क्रिय डिज़ाइन रणनीतियाँ प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करती हैं, भवन की दिशा को अनुकूलित करती हैं, और थर्मल मास का लाभ उठाती हैं ताकि कृत्रिम प्रकाश, हीटिंग, और कूलिंग की आवश्यकता को कम किया जा सके।

- These strategies must be tailored to the **local climate** and the building's specific needs, ensuring efficient operation without heavy reliance on **mechanical systems**.

इन रणनीतियों को स्थानीय जलवायु और भवन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, ताकि बिना भारी निर्भरता के यांत्रिक प्रणालियों पर कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।

- On the **active side**, HPBs use **energy-efficient HVAC systems**, **lighting**, and **appliances** supported by **smart technologies** like automated lighting control and **occupancy sensors** for **real-time energy monitoring** and optimization.

सक्रिय पक्ष में, HPBs ऊर्जा-कुशल HVAC प्रणालियाँ, लाइटिंग, और उपकरण का उपयोग करते हैं, जो स्मार्ट प्रौद्योगिकियों जैसे स्वचालित लाइटिंग नियंत्रण और आधिकारिक संसर द्वारा समर्थित होते हैं, जो वास्तविक समय ऊर्जा निगरानी और अनुकूलन के लिए होते हैं।

- The **Infosys Hyderabad campus** was India's first HPB to have a **radiant cooling HVAC system** that combines **daylighting controls** and **task-lighting** to minimize energy use.

इंफोसिस हैदराबाद परिसर भारत का पहला HPB था जिसमें रेडिएंट कूलिंग HVAC सिस्टम था, जो प्राकृतिक प्रकाश नियंत्रण और कार्य-प्रकाश को संयोजित करता है ताकि ऊर्जा उपयोग को न्यूनतम किया जा सके।





- A key goal for HPBs is **net-zero energy**, i.e., **net-positive energy performance**: they generate as much or more energy than they consume.
HPBs का एक प्रमुख लक्ष्य **नेट-जीरो ऊर्जा** है, अर्थात् **नेट-पॉजिटिव ऊर्जा प्रदर्शन**: ये उतनी या अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जितनी वे उपभोग करते हैं।
- **Advances** in affordable **solar** and **wind technology** make it easier to achieve this goal and reduce **fossil fuel** use.
सस्ते सौर और पवन प्रौद्योगिकी में प्रगति इस लक्ष्य को प्राप्त करना और **जीवाश्म ईंधन** के उपयोग को कम करना आसान बनाती है।

How do HPBs save water?

HPBs पानी कैसे बचाते हैं?

- **Water scarcity** is a critical issue nationwide, and HPBs address it by conserving and reusing water, as well as fine-tuning its quality.
पानी की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और HPBs इसे पानी को बचाने और फिर से उपयोग करने के साथ-साथ इसके गुणवत्ता को सुधारकर हल करते हैं।
- **Efficient fixtures** like **low-flow faucets** and **dual-flush toilets** reduce water use, while **rainwater harvesting apparatuses** collect rainwater for non-potable uses like **irrigation** and **sanitation**.
कुशल उपकरण जैसे **कम-प्रवाह नल** और **ड्यूल-फ्लश टॉयलेट** पानी के उपयोग को कम करते हैं, जबकि **वर्षा जल संचयन उपकरण** वर्षा जल को **सिंचाई** और **स्वच्छता** जैसे गैर-पीने योग्य उपयोगों के लिए एकत्र करते हैं।

On-site wastewater treatment systems

साइट पर जल निस्तारण उपचार प्रणाली

- On-site wastewater treatment systems increase efficiency by recycling **greywater** for **irrigation** and treating **blackwater** with biological systems like **constructed wetlands** and **sewage treatment plants**.
साइट पर जल निस्तारण उपचार प्रणाली **ग्रे वॉटर** को **सिंचाई** के लिए पुनर्चक्रित करके और **ब्लैक वॉटर** का जैविक प्रणालियों जैसे **निर्मित आर्द्रभूमि** और **सीवेज उपचार संयंत्रों** के साथ उपचार करके दक्षता बढ़ाती हैं।
- HPBs also incorporate **green infrastructure** elements such as **permeable paving** and **bioswales** to manage **stormwater** and cool **urban heat islands**.
HPBs में **हरी बुनियादी ढांचे** के तत्व भी शामिल होते हैं जैसे **परमीयाबल पविंग** और **बायोस्वेल्स**, जो **वर्षा जल** प्रबंधन करते हैं और **शहरी गर्मी द्वीपों** को ठंडा करते हैं।
- **Infosys campuses** in India, for example, recycle **100%** of their wastewater using a **water management system** and **aerobic membrane bioreactor**, earning them **zero-discharge status**.





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

उदाहरण के लिए, इंसोसिस परिसर भारत में 100% अपने अपशिष्ट जल को जल प्रबंधन प्रणाली और एरोबिक मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का उपयोग करके पुनर्चक्रित करते हैं, जिससे उन्हें जीरो-डिस्चार्ज स्थिति प्राप्त होती है।

Why is monitoring important?

निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है?

- **Performance monitoring** helps ensure an HPB meets **design goals** and operates **efficiently**.
प्रदर्शन निगरानी यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि HPB डिजाइन लक्ष्यों को पूरा करता है और कुशलता से कार्य करता है।
- Using advanced **monitoring systems**, an HPB tracks **energy consumption, water use, and indoor environmental quality in real-time**.
उन्नत निगरानी प्रणालियों का उपयोग करते हुए, HPB ऊर्जा खपत, पानी उपयोग, और आंतरिक पर्यावरण गुणवत्ता को वास्तविक समय में ट्रैक करता है।
- This data helps **facility managers** identify **inefficiencies** and implement **corrective action**.
यह डेटा सुविधा प्रबंधकों को अप्रभावी व्यवस्थाओं का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने में मदद करता है।
- **Continuous performance assessments** can also validate the **design** and inform **future projects**.
निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन डिजाइन को सत्यापित कर सकते हैं और भविष्य की परियोजनाओं को सूचित कर सकते हैं।
- For example, the second annexe of the **IIS Bengaluru campus** uses a **network of smart devices plus controls linked to artificial intelligence** to optimise **thermal regulation**.
उदाहरण के लिए, IIS बेंगलूर परिसर के दूसरे सहायक भवन में स्मार्ट उपकरणों का नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नियंत्रण का उपयोग करके ऊष्मा नियंत्रण को अनुकूलित किया जाता है।

How can HPBs handle climate risks?

HPBs जलवायु जोखिमों को कैसे संभाल सकते हैं?

- HPBs are built to withstand **unpredictable weather** like **extreme heat and flash floods**, beginning with careful **site selection** and **flood protection measures**.
HPBs को अप्रत्याशित मौसम जैसे अत्यधिक गर्मी और आकस्मिक बाढ़ से बचने के लिए सावधानीपूर्वक स्थल चयन और बाढ़ सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाता है।

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





- **Durable materials** and diverse **energy systems** enhance **structural resilience**, while **passive survivability** ensures the structures are **habitable** even during a **power outage**.

मजबूत सामग्री और विविध ऊर्जा प्रणालियाँ संरचनात्मक लचीलापन बढ़ाती हैं, जबकि निष्क्रिय जीवित क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि संरचनाएँ वातावरणीय संकट के दौरान भी रहने योग्य रहें।

- **Renewable energy systems** also provide **backup power**, and **rainwater harvesting** and **onsite treatment systems** ensure **water doesn't run low**.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ बैकअप पावर भी प्रदान करती हैं, और वर्षा जल संचयन और साइट पर उपचार प्रणाली यह सुनिश्चित करती हैं कि पानी की कमी न हो।

- For example, the **Infosys Crescent building** in **Bengaluru** is designed to use **far less energy** than typical office buildings.

उदाहरण के लिए, **इंफोसिस क्रेसेंट भवन बेंगलूर** में डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सामान्य कार्यालय भवनों की तुलना में **काफी कम ऊर्जा** का उपयोग करे।

- It serves about **8,000 people** and uses only **75 kWh of energy per sq.m** each year, while most offices use between **150 and 200 kWh**.

यह लगभग **8,000 लोगों** को सेवा प्रदान करता है और केवल **75 kWh ऊर्जा प्रति वर्ग मीटर** का उपयोग करता है, जबकि अधिकांश कार्यालय **150 से 200 kWh** का उपयोग करते हैं।

- With **90%** of the space air-conditioned, the building's **advanced cooling system** requires **3 W per sq. ft** versus the usual **4-5 W** in regular offices.

90% स्थान एयर-कंडीशन किया गया है, भवन का **उन्नत शीतलन प्रणाली** सामान्य कार्यालयों में **4-5 W** के मुकाबले केवल **3 W प्रति वर्ग फुट** की आवश्यकता होती है।

- This shows how **smart design** can save **energy** and reduce **costs** without increasing **building expenses**.

यह दिखाता है कि **स्मार्ट डिज़ाइन** कैसे **ऊर्जा** बचा सकता है और **लागत** को कम कर सकता है बिना **भवन खर्चों** को बढ़ाए।

- Taken together, HPBs set the standard for buildings this century and benchmarks for **sustainability** and **resilient built-environments**.

एक साथ मिलकर, HPBs इस सदी के लिए भवनों के लिए मानक तय करते हैं और **सततता** और **लचीले निर्माण पर्यावरण** के लिए बेंचमार्क तय करते हैं।

- In addition to their benefits for the **climate** and lowering **operational costs**, they improve **real estate value**.

जलवायु और **संचालन लागतों** को कम करने के अलावा, ये **रियल एस्टेट मूल्य** को भी बढ़ाते हैं।

- As the practices underlying their construction and operation become more widespread, the goal should be to make all buildings HPBs.

जैसे-जैसे उनके निर्माण और संचालन के पीछे की **प्रथाएँ** अधिक व्यापक होती जाती हैं, उद्देश्य यह होना चाहिए कि सभी भवनों को HPB बनाया जाए।





SC Collegium proposes new Chief Justice for Manipur

GS Paper II: Collegium System

NEW DELHI

The Supreme Court Collegium on Monday, in its first resolution after Justice Sanjiv Khanna took over as Chief Justice of India on November 11, recommended the appointment of Madras High Court judge Justice D. Krishnakumar as the Manipur High Court Chief Justice.

The incumbent, Justice Siddharth Mridul, retires on November 21. If the government approves the Collegium's recommendation, Justice Krishnakumar would take over on the retirement of Justice Mridul.

Justice Krishnakumar is due to retire on May 21, 2025. He belongs to a Backward Community.

As a lawyer, Justice Krishnakumar had extensive practice in Civil, Constitutional and Service matters in the High Court, with specialisation in Constitutional law.

"He is a competent judge with a sound legal acumen. He is endowed with a high level of integrity and honesty," the Collegium said.

● Sandhya Patil is a **sustainability expert** with the **Indian Institute for Human Settlements** and anchors technical assistance for **ASSURE**.

संध्या पाटिल एक सततता विशेषज्ञ हैं और भारतीय मानव बस्तियाँ संस्थान में कार्यरत हैं और **ASSURE** के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं।

● The author does not have any **financial interests vested** with any company or organisation that would benefit from this article.

लेखक के पास किसी भी कंपनी या संगठन से कोई **वित्तीय हित** नहीं हैं जो इस लेख से लाभान्वित हो सकते हैं।

SC Collegium proposes new Chief Justice for Manipur

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर के लिए नए मुख्य न्यायाधीश का प्रस्ताव रखा

Supreme Court Collegium's Recommendation

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

● The **Supreme Court Collegium** on Monday, in its first resolution after Justice **Sanjiv Khanna** took over as **Chief Justice of India** on **November 11**, recommended the appointment of **Madras High Court judge Justice D. Krishnakumar** as the **Manipur High Court Chief Justice**.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली सिफारिश में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

● The incumbent, **Justice Siddharth Mridul**, retires on **November 21**.

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, 21 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

● If the government approves the **Collegium's recommendation**, **Justice Krishnakumar** would take over on the retirement of **Justice Mridul**.

यदि सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देती है, तो न्यायमूर्ति कृष्णकुमार न्यायमूर्ति मृदुल के सेवानिवृत्त होने पर कार्यभार संभालेंगे।

● **Justice Krishnakumar** is due to retire on **May 21, 2025**.

न्यायमूर्ति कृष्णकुमार की सेवानिवृत्ति 21 मई, 2025 को होगी।

● He belongs to a **Backward Community**.

वह एक पिछड़ी जाति से संबंधित हैं।





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

- As a lawyer, **Justice Krishnakumar** had extensive practice in **Civil, Constitutional, and Service matters** in the **High Court**, with specialization in **Constitutional law**.
एक वकील के रूप में, न्यायमूर्ति कृष्णकुमार ने नागरिक, संविधानिक, और सेवा मामलों में उच्च न्यायालय में व्यापक प्रैक्टिस की, विशेष रूप से संविधान कानून में विशेषज्ञता के साथ।
- “He is a **competent judge** with a sound **legal acumen**. He is endowed with a high level of **integrity** and **honesty**,” the **Collegium** said.
“वह एक कुशल न्यायधीश हैं जिनमें मजबूत कानूनी समझ है। वह ईमानदारी और सच्चाई के उच्च स्तर से संपन्न हैं,” कॉलेजियम ने कहा।





Rajoana plea: SC calls for decision, Centre seeks adjournment

GS Paper III: Mercy Power

Krishnadas Rajagopal

NEW DELHI

A Special Bench of the Supreme Court directed the President's office on Monday to push for a decision on death row convict **Balwant Singh Rajoana's mercy plea** in the **Beant Singh assassination case** in two weeks, but the Union government, which was absent during the hearing, suddenly moved in and sought retraction of the order.

To start with, the **three-judge Special Bench of Justices B.R. Gavai, P.K. Mishra and K.V. Viswanathan** directed the **Secretary to the President of India** to place Rajoana's mercy plea before the President with a request to take a call in a fortnight. The Bench recorded in its order that if no decision of the President was forthcoming, the Supreme Court would con-

sider Rajoana's plea for interim relief. The Special Bench listed the case on December 5.

However, shortly after the Special Bench hearing was over and the Regular Bench of Justices Gavai and Viswanathan returned to hear the daily board of cases, Solicitor-General Tushar Mehta rushed into the courtroom. He regretted the absence of Union government counsel during the Special Bench hearing. He urged Justice Gavai to retract the order, to simply adjourn the Rajoana case and post the case in a day or two.

Justice Gavai responded that the court had only asked the President's Secretary to place the matter before the President.

He eventually told Mr. Mehta to speak to senior advocate Mukul Rohatgi, who appeared for Rajoana in the morning.

- The **three-judge Special Bench of Justices B.R. Gavai, P.K. Mishra, and K.V. Viswanathan** directed the **Secretary to the President of India** to place **Rajoana's mercy plea** before the President with a request to take a call in a **fortnight**.

Rajoana plea: SC calls for decision, Centre seeks adjournment

राजोआना की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मांगा, केंद्र ने स्थगन की मांग की

Supreme Court Directs President's Office on Rajoana Mercy Plea

सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की दया याचिका पर राष्ट्रपति कार्यालय को निर्देश दिए

- A **Special Bench** of the **Supreme Court** directed the **President's office** on Monday to push for a decision on death row convict **Balwant Singh Rajoana's mercy plea** in the **Beant Singh assassination case** in **two weeks**.

सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच ने सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय को बालवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर बीट सिंह हत्याकांड मामले में दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया।

- The **Union government**, which was absent during the hearing, suddenly moved in and sought retraction of the order.

केंद्र सरकार, जो सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थी, अचानक मामलों में आई और आदेश को वापस लेने की मांग की।





तीन न्यायाधीशों की विशेष बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई, पी.के. मिश्रा और के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को रजोआना की दया याचिका को राष्ट्रपति के सामने रखने का निर्देश दिया और पंद्रह दिन के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

- The Bench recorded in its order that if no decision of the President was forthcoming, the **Supreme Court** would consider **Rajoana's plea for interim relief**.

बेंच ने अपने आदेश में यह दर्ज किया कि यदि राष्ट्रपति का कोई निर्णय नहीं आता है, तो **सुप्रीम कोर्ट** रजोआना की अंतरिम राहत याचिका पर विचार करेगा।

- The **Special Bench** listed the case for **December 5**.

विशेष बेंच ने मामले को **5 दिसंबर** को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

- However, shortly after the **Special Bench hearing** was over and the **Regular Bench** of Justices Gavai and Viswanathan returned to hear the daily board of cases, **Solicitor-General Tushar Mehta** rushed into the courtroom.

हालांकि, विशेष बेंच की सुनवाई के बाद और नियमित बेंच के न्यायमूर्ति गवाई और विश्वनाथन के रोजाना मामलों की सुनवाई के लिए लौटने के बाद, **सलिसिटर जनरल तुषार मेहता** अदालत कक्ष में दौड़ते हुए आए।

- **Tushar Mehta** regretted the absence of **Union government counsel** during the **Special Bench hearing**.

तुषार मेहता ने विशेष बेंच की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया।

- He urged **Justice Gavai** to retract the order, to simply adjourn the **Rajoana case** and post the case in a day or two.

उन्होंने न्यायमूर्ति गवाई से आदेश वापस लेने का आग्रह किया, रजोआना मामले को स्थगित कर केवल एक-दो दिन में सुनवाई के लिए पोस्ट करने की मांग की।

- **Justice Gavai** responded that the court had only asked the **President's Secretary** to place the matter before the President.

न्यायमूर्ति गवाई ने जवाब दिया कि अदालत ने केवल राष्ट्रपति के सचिव से यह अनुरोध किया था कि वह मामले को राष्ट्रपति के सामने रखें।

- **Justice Gavai** eventually told **Mr. Mehta** to speak to **senior advocate Mukul Rohatgi**, who appeared for **Rajoana** in the morning.

न्यायमूर्ति गवाई ने अंततः श्री मेहता को वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से बात करने को कहा, जिन्होंने सुबह के समय रजोआना की ओर से पेशी की थी।



Chennai-Vladivostok maritime corridor is operational: Sonowal

GS Paper II: India-Russia

Dinakar Peri

NEW DELHI

The Chennai-Vladivostok eastern maritime corridor has become operational and is carrying oil, food, and machines, Minister for Ports, Shipping, and Waterways Sarbananda Sonowal said on Monday.

He said India and Greece would work together on the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEEC) announced last year. India aims to be the best maritime nation in the world in all indices, Mr. Sonowal said, outlining a 'maritime vision 2047'.

"Out of the 139 marine nations across the world, we want to be on the top in all the verticals, whether it is port operations, cargo handling, ship ownership, ship building, ship repair, recycling, technology, and legislative reforms," Mr. Sonowal said, speaking to the media on the sidelines of



Sarbananda Sonowal said out of the 139 marine nations across the world, India wants to be on the top in all the verticals. THE HINDU

the inaugural edition of 'Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue' thought leadership summit, organised by the Ministry in partnership with Observer Research Foundation. He also held bilateral talks with Christos Stylianides, Greece's Minister of Maritime Affairs and Insular Policy.

The two-day dialogue has over 1,700 participants, including over 215 delegates from 60 coun-

tries, officials said.

Officials said the Chennai-Vladivostok corridor became operational at the end of last year. The government had stated earlier that the corridor would result in significant reduction in the time required to transport cargo between India and Far East Russia – by up to 16 days; from 40 to 24 days; and a significant reduction of the distance by up to 40%.

"The IMEEC that was

announced during the G20 summit – it goes from India to UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, then three European countries, Italy, France and Greece. Ultimately this line will also have a railway line, [and] sea route totally over 4,800 km. India and Greece will work together," Mr. Sonowal said in the media interaction. On the Chennai-Vladivostok maritime corridor, he said it had become operational and, along with the port in the Bay of Bengal, Paradip and Vizag also have connectivity. "We are getting crude, food, and machines. We are also sending... It is operating smoothly," he said.

His remarks come in the backdrop of apprehensions on the progress of the IMEEC, given the volatile situation in West Asia in the backdrop of the attacks on Israel, and the continuing offensive in Gaza and Lebanon.

Chennai-Vladivostok maritime corridor is operational: Sonowal

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा चालू है: सोनोवाल



Chennai-Vladivostok Maritime Corridor Becomes Operational

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा परिचालन में आया

- The **Chennai-Vladivostok eastern maritime corridor** has become operational and is carrying **oil, food, and machines**, said **Minister for Ports, Shipping, and Waterways, Sarbananda Sonowal** on Monday.

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा परिचालन में आ गया है और यह तेल, खाद्य, और मशीनें ले जा रहा है, सोमवार को पत्तन, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा।

- **India and Greece** will work together on the **India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEEC)**, which was announced last year.

भारत और ग्रीस पिछले वर्ष घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) पर एक साथ काम करेंगे।

- **India** aims to be the best maritime nation in the world in all indices, as per **Mr. Sonowal**, outlining a **'maritime vision 2047'**.

भारत का उद्देश्य 'समुद्री दृष्टि 2047' के तहत सभी सूचकों में दुनिया का सबसे बेहतरीन समुद्री देश बनना है, जैसा कि श्री सोनोवाल ने कहा।

- **Mr. Sonowal** mentioned that out of the **139 marine nations** across the world, India aims to be at the top in all verticals like **port operations, cargo handling, ship ownership, ship building, ship repair, recycling, technology, and legislative reforms**.

श्री सोनोवाल ने कहा कि 139 समुद्री देशों में से, भारत पत्तन संचालन, मालवाहन, जहाज स्वामित्व, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, पुनर्चक्रण, प्रौद्योगिकी, और विधायी सुधारों जैसे सभी क्षेत्रों में शीर्ष स्थान हासिल करना चाहता है।

- **Mr. Sonowal** spoke to the media on the sidelines of the inaugural edition of **'Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue'**, a thought leadership summit organised by the **Ministry of Ports, Shipping and Waterways** in partnership with **Observer Research Foundation**.

श्री सोनोवाल ने मीडिया से बातचीत की, यह अवसर था 'सागरमंथन: द ग्रेट ओसियन्स डायलॉग' के उद्घाटन संस्करण का, जो पत्तन, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साझेदारी में आयोजित किया गया था।

- **Mr. Sonowal** also held bilateral talks with **Christos Stylianides, Greece's Minister of Maritime Affairs and Insular Policy**.





श्री सोनोवाल ने क्रिस्टोस स्टाइलियानिडेस, ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीप नीति मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।

- The **two-day dialogue** has over **1,700 participants**, including **over 215 delegates from 60 countries**, officials said.

अधिकारियों के अनुसार, दो दिवसीय संवाद में 1,700 से अधिक प्रतिभागी हैं, जिनमें 60 देशों से 215 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं।

- The **Chennai-Vladivostok corridor** became operational at the end of last year, officials confirmed.

अधिकारियों ने पुष्टि की कि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा पिछले वर्ष के अंत में परिचालन में आ गया।

- The **Chennai-Vladivostok corridor** will significantly reduce the time required to transport cargo between **India and Far East Russia**, cutting it from **40 days to 24 days**, and reducing the distance by up to **40%**.

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा भारत और दूर-पूर्व रूस के बीच माल परिवहन में समय को महत्वपूर्ण रूप से घटाएगा, इसे 40 दिन से 24 दिन तक कम करेगा, और दूरी में 40% तक की कमी करेगा।

- The **IMEEC**, announced during the **G20 summit**, will connect **India to UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel**, and then **Italy, France, and Greece**. It will eventually have a railway line and sea route, covering a total distance of over **4,800 km**.

IMEEC, जो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित हुआ था, भारत को UAE, सऊदी अरब, जोर्डन, इज़राइल, और फिर इटली, फ्रांस और ग्रीस से जोड़ेगा। अंततः इसमें एक रेलवे लाइन और समुद्री मार्ग होगा, जो कुल 4,800 किमी से अधिक की दूरी कवर करेगा।

- **Mr. Sonowal** mentioned that the **Chennai-Vladivostok maritime corridor** has become operational, and along with the **Bay of Bengal port, Paradip and Vizag** also have connectivity.

श्री सोनोवाल ने कहा कि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा परिचालन में आ गया है, और बंगाल की खाड़ी के पत्तन, परदीप और विशाखापट्टनम में भी कनेक्टिविटी है।

- **Mr. Sonowal** highlighted that the corridor is receiving **crude, food, and machines**, and the system is operating smoothly.

श्री सोनोवाल ने बताया कि गलियारा कच्चा तेल, खाद्य, और मशीनें प्राप्त कर रहा है, और यह प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है।

- These remarks come against the backdrop of apprehensions about the progress of the **IMEEC**, especially considering the volatile situation in **West Asia**, with the attacks on **Israel**, and the ongoing offensive in **Gaza and Lebanon**.

ये टिप्पणियाँ IMEEC की प्रगति के बारे में चिंता के संदर्भ में आई हैं, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में इज़राइल पर हमले, और गाजा और लेबनान में चल रहे आक्रमण की स्थिति को देखते हुए।





Sanjay Murthy appointed new CAG

GS Paper II: CAG

The Hindu Bureau
NEW DELHI

President Droupadi Murmu on Monday appointed a 1989-batch Indian Administrative Service (IAS) officer, K. Sanjay Murthy, the new Comptroller and Auditor-General of India.

The appointment came two days before incumbent Girish Chandra Murmu's tenure ends. Mr. Murmu was appointed the CAG in August 2020.

Mr. Murthy is currently posted as Secretary, Department of Higher Education, and his tenure was to end on December 31.

Sanjay Murthy appointed new CAG संजय मूर्ति नए CAG नियुक्त

Appointment of New Comptroller and Auditor-General of India

भारत के नए नियंत्रक और महालेखाकार की नियुक्ति

● President **Droupadi Murmu** on Monday appointed a 1989-batch Indian Administrative Service (IAS) officer, **K. Sanjay Murthy**, as the new **Comptroller and Auditor-General of India**.

राष्ट्रपति **द्रौपदी मुर्मू** ने सोमवार को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी **K. संजय मूर्ति** को भारत के नए नियंत्रक और महालेखाकार के रूप में नियुक्त किया।

● The appointment came two days before incumbent **Girish Chandra Murmu's** tenure ends.

यह नियुक्ति वर्तमान **गिरीश चंद्र मुर्मू** के कार्यकाल के समाप्त होने से दो दिन पहले की गई।

● Mr. Murmu was appointed the **CAG** in **August 2020**.

श्री मुर्मू को **अगस्त 2020** में **CAG** के रूप में नियुक्त किया गया था।

● Mr. Murthy is currently posted as **Secretary, Department of Higher Education**, and his tenure was to end on **December 31**.

श्री मूर्ति वर्तमान में **उच्च शिक्षा विभाग के सचिव** के रूप में तैनात हैं, और उनका कार्यकाल **31**

दिसंबर को समाप्त होना था।



PCS

Uma Dasgupta of Pather Panchali fame passes away

Uma Dasgupta, who immortalised the role of 'Durga' in Satyajit Ray's iconic film *Pather Panchali*, died in a private hospital in Kolkata on Monday, family sources said. The 84-year-old had been battling cancer. Having been cast in the role of Durga in *Pather Panchali*, at the age of 14, Ms. Dasgupta won the hearts of audiences worldwide for the portrayal of the character. She was noticed by Ray during her stage performance as a child artist in a school function and the director got in touch with her school and family. She did not act after her iconic performance and worked as a teacher. P11

Uma Dasgupta of Pather Panchali fame passes away

पाथेर पांचाली की प्रसिद्धि उमा दासगुप्ता का

निधन

Uma Dasgupta, Iconic 'Durga' from Pather Panchali, Dies

पथेर पांचाली की प्रतिष्ठित 'दुर्गा' उमा दासगुप्ता का निधन

● **Uma Dasgupta**, who immortalised the role of 'Durga' in Satyajit Ray's iconic film **Pather Panchali**, died in a private hospital in **Kolkata** on Monday, family sources said.

उमा दासगुप्ता, जिन्होंने सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म **पथेर पांचाली** में 'दुर्गा'





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

की भूमिका को अमर किया, सोमवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, परिवारिक स्रोतों ने बताया।

- The **84-year-old** had been battling **cancer**.
84 वर्षीय उमा दासगुप्ता कैंसर से जूझ रही थीं।
- She was cast in the role of **Durga** in **Pather Panchali** at the age of **14** and won the hearts of audiences worldwide for her portrayal of the character.
उन्हें **पथेर पांचाली** में **14 वर्ष** की आयु में **दुर्गा** की भूमिका मिली थी और उन्होंने इस पात्र के चित्रण से दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता।
- She was noticed by **Satyajit Ray** during her **stage performance** as a child artist in a school function, and the director got in touch with her **school** and **family**.
उन्हें **सत्यजीत रे** ने एक **विद्यालय समारोह** में बाल कलाकार के रूप में मंच प्रदर्शन करते हुए देखा था, और निर्देशक ने उनके **विद्यालय** और **परिवार** से संपर्क किया।
- After her iconic performance in **Pather Panchali**, she did not act again and worked as a **teacher**.
पथेर पांचाली में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका के बाद, उन्होंने फिर कभी अभिनय नहीं किया और एक **शिक्षक** के रूप में काम किया।





Blazing a trail: The Falcon-9 rocket with the GSAT-N2 payload lifts off from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. AP

SpaceX's Falcon-9 deploys Indian satellite into orbit

GS Paper III: S&T

Hemanth C.S.
BENGALURU

India's GSAT-N2 (GSAT-20) communication satellite was successfully launched by SpaceX's Falcon-9 rocket in the early hours of Tuesday.

After lifting off at 12.01 a.m. (Indian Standard Time) from the Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Space Force Station in Florida, Falcon-9 put the GSAT-N2 into a geosynchronous transfer orbit.

GSAT-N2 is a Ka-band high throughput communication satellite of NewSpace India Ltd., which is the commercial arm of the Indian Space Research Or-

ganisation. According to the ISRO, the satellite is set to enhance broadband services and in-flight connectivity across the Indian region.

"This satellite, featuring multiple spot beams and wideband Ka x Ka transponders, aims to support a large subscriber base with small user terminals, significantly boosting system throughput through its multi-beam architecture which allows frequency reuse," the ISRO said.

The GSAT-N2 satellite, with a lift-off mass of 4,700 kg, has a mission life of 14 years.

This is India's first collaboration with Elon Musk's SpaceX.

- According to ISRO, the satellite is set to enhance **broadband services** and **in-flight connectivity** across the **Indian region**.

SpaceX's Falcon-9 deploys Indian satellite into orbit

स्पेसएक्स के फाल्कन-9 ने भारतीय उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया

India's GSAT-N2 Communication Satellite Successfully Launched

भारत का GSAT-N2 संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च

- India's GSAT-N2 (GSAT-20) communication satellite was successfully launched by **SpaceX's Falcon-9** rocket in the early hours of Tuesday.

भारत का GSAT-N2 (GSAT-20) संचार उपग्रह मंगलवार की सुबह SpaceX के Falcon-9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

- After lifting off at **12.01 a.m. (Indian Standard Time)** from the **Space Launch Complex 40 (SLC-40)** at **Cape Canaveral Space Force Station in Florida**, **Falcon-9** put the **GSAT-N2** into a **geosynchronous transfer orbit**.

12:01 ए.एम. (भारतीय मानक समय) पर **Cape Canaveral Space Force Station (फ्लोरिडा)** के **Space Launch Complex 40 (SLC-40)** से उड़ान भरने के बाद, **Falcon-9** ने **GSAT-N2** को **जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा** में स्थापित किया।

- **GSAT-N2** is a **Ka-band high throughput communication satellite** of **NewSpace India Ltd.**, the commercial arm of the **Indian Space Research Organisation (ISRO)**.

GSAT-N2 एक **Ka-बैंड उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह** है, जो **NewSpace India Ltd.** का है, जो **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** की वाणिज्यिक शाखा है।





ISRO के अनुसार, यह उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी को भारतीय क्षेत्र में बढ़ाने के लिए तैयार है।

- The satellite features **multiple spot beams** and **wideband Ka x Ka transponders**, aiming to support a large subscriber base with small user terminals, significantly boosting system throughput through its **multi-beam architecture**.
उपग्रह में कई स्पॉट बीम और वाइडबैंड Ka x Ka ट्रांसपॉंडर्स हैं, जो छोटे उपयोगकर्ता टर्मिनलों के साथ एक बड़े ग्राहक आधार का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और इसके मल्टी-बीम आर्किटेक्चर के माध्यम से सिस्टम थ्रूपुट को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।
- The **GSAT-N2** satellite has a **lift-off mass of 4,700 kg** and a **mission life of 14 years**.
GSAT-N2 उपग्रह का लिफ्ट-ऑफ़ मास 4,700 किलोग्राम है और इसका मिशन जीवन 14 साल है।
- This is India's first collaboration with **Elon Musk's SpaceX**.

Around 6.5 lakh applications come in for **PM's Internship Scheme** pilot project

GS Paper II: Government Schemes
Asstt. Professor
NEW DELHI

As many as 6.5 lakh youth had applied for internships under the PM Internship Scheme in Top Companies (Scheme) pilot project as of Friday last, when the window closed for the 1.27 lakh opportunities initially being offered by Corporate India under the scheme, according to government sources.

The project is aimed at providing on-the-job training to one crore people over five years.

The number of applications does not equate to the number of individual applicants, clarified an official source, as every applicant can apply for five different internships that have been offered.

The scheme's pilot, learnings from which would be used to scale it up for a full-fledged roll-out, has attracted internship offers from 280 major firms such as Tata Steel, ITC Limited, ICICI Bank, and the Mahindra Group.

The deadline for applications was extended from

November 10 to November 15 to provide youngsters more time to apply.

Unemployed youth between 21 and 24 years of age, who do not have a family member earning over ₹8 lakh per annum, are eligible for the scheme.

Companies that have signed up for the scheme would now begin the selection process. As per the original timeline, the selected interns are expected to begin their year-long tenure with companies on December 2.

Many youth who had re-

The number of applications do not equate with the total applicants, officials explained

gistered said they were hopeful of getting selected, while for a few it was a "back-up" option.

College professors said while students were enthusiastic, very few had applied as only those not currently enrolled in full-time programmes were eligible.

On October 3, the portal was launched for compa-

nies to register and opened for applicants on October 12 for profile creation.

On October 23, the applications for internships began officially. Applicants have been asked to keep an eye out on the portal, and via mail for updates.

"For those of us who are looking for a future in academics or preparing for civil service examinations, this scheme is ideal," said Kratika Verma, 22, who recently graduated from Jawaharlal Nehru University (JNU), with a master's in disaster management, and

plans on pursuing a PhD.

While applying, candidates could key in preferences such as sector, functional role, State and district. According to the dashboard on the PM internship portal, internships have been offered across States and Union Territories, with the highest being in Maharashtra at 14,694, followed by Tamil Nadu at 13,263. The lowest was from Lakshadweep, which had just two offers.

Delhi offered a total of 3,543 opportunities.

According to the Minis-

try of Corporate Affairs' guidelines, companies will pay ₹500 per month from their CSR funds, based on attendance and conduct, after which the government would initiate a direct benefit transfer of ₹4,500 to the intern's Aadhaar-seeded bank account.

A one-time grant of ₹6,000 for incidental expenses would be provided to an intern upon joining.

While for those such as Kratika the stipend of ₹5,000 is a "huge bonus", some feel they would not be able to sustain with

₹5,000 per month, for an entire year.

Ravikant Tiwari, 19, a third-year student at Aryabhata College, who had applied under the scheme, said he was worried that his expenses might exceed the stipend amount. At the Delhi University, an official said while there was interest in the scheme among students, many had also applied for the six-month vice-chancellor internship scheme - initiated last year - that offers a stipend of ₹5,500 per month.

यह भारत का एलोन मस्क की SpaceX के साथ पहला सहयोग है।

Around 6.5 lakh applications come in for PM's Internship Scheme pilot project

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए करीब 6.5 लाख आवेदन आए

PM Internship Scheme Sees Huge Response: 6.5 Lakh Applicants

पीएम इंटरनशिप योजना में भारी प्रतिक्रिया: 6.5 लाख आवेदक

- As of **Friday last**, a total of **6.5 lakh youth** had applied for internships under the **PM Internship Scheme in Top Companies** pilot project, with **1.27 lakh opportunities**





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

initially being offered by Corporate India under the scheme.

पिछले शुक्रवार तक, 6.5 लाख युवाओं ने पीएम इंटरनशिप योजना के तहत टॉप कंपनियों के पायलट प्रोजेक्ट में आवेदन किया, जिसमें 1.27 लाख अवसर शुरू में कॉर्पोरेट इंडिया द्वारा योजना के तहत प्रदान किए गए थे।

- The project aims to provide on-the-job training to **one crore people** over **five years**. यह प्रोजेक्ट पाँच सालों में एक करोड़ लोगों को ऑन-थे-जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
- The number of applications does not equate to the number of individual applicants, as each applicant can apply for **five different internships**. आवेदन की संख्या व्यक्तिगत आवेदकों की संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आवेदक पाँच अलग-अलग इंटरनशिप के लिए आवेदन कर सकता है।
- The scheme's pilot has attracted internship offers from **280 major firms** like **Tata Steel, ITC Limited, ICICI Bank**, and the **Mahindra Group**. योजना के पायलट में 280 प्रमुख कंपनियों जैसे **Tata Steel, ITC Limited, ICICI Bank**, और **Mahindra Group** से इंटरनशिप प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- The deadline for applications was extended from **November 10 to November 15** to give applicants more time. आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर से 15 नवंबर तक बढ़ाई गई थी ताकि आवेदकों को अधिक समय मिल सके।
- **Unemployed youth** between the ages of **21 and 24 years**, who do not have a family member earning over **₹8 lakh per annum**, are eligible for the scheme. अवसाधारिता युवा जिनकी आयु 21 से 24 वर्ष के बीच है, और जिनके परिवार में कोई भी सदस्य ₹8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं कमाता, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- Companies that have signed up for the scheme will begin the **selection process**, with selected interns expected to start their **year-long tenure** on **December 2**. जिन कंपनियों ने योजना के लिए साइन अप किया है, वे चयन प्रक्रिया शुरू करेंगी, और चयनित इंटरनों का एक साल का कार्यकाल 2 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है।
- Many youth who registered said they were hopeful of getting selected, while for some, it was a **"back-up"** option. कई युवाओं ने जो पंजीकरण किया था, कहा कि वे चयनित होने की उम्मीद करते थे, जबकि कुछ के लिए यह एक "बैक-अप" विकल्प था।
- College professors said that while students were enthusiastic, only those **not enrolled in full-time programmes** were eligible to apply. कॉलेज के प्रोफेसरों ने कहा कि जबकि छात्र उत्साहित थे, केवल वे जो पूर्णकालिक कार्यक्रमों में दाखिल नहीं थे वे आवेदन करने के पात्र थे।

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





- The portal was launched for companies on **October 3** and opened for applicants on **October 12** for profile creation. Applications officially began on **October 23**.
3 अक्टूबर को कंपनियों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया और **12 अक्टूबर** को आवेदकों के लिए प्रोफाइल निर्माण के लिए खोला गया। आवेदन **23 अक्टूबर** से आधिकारिक रूप से शुरू हुए थे।
- Applicants have been advised to keep checking the portal and email for updates.
आवेदकों को पोर्टल और ईमेल पर अपडेट्स के लिए निगरानी रखने की सलाह दी गई है।
- **Kratika Verma**, a 22-year-old graduate from **Jawaharlal Nehru University (JNU)**, mentioned that for students aiming for academics or civil services, the scheme is ideal.
Kratika Verma, 22 वर्षीय **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)** की स्नातक, ने कहा कि जो छात्र शैक्षिक या नागरिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना आदर्श है।
- Candidates could input preferences like **sector, functional role, State, and district** while applying.
आवेदन करते समय उम्मीदवार **क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका, राज्य, और जिले** जैसी प्राथमिकताएँ दर्ज कर सकते थे।
- Internships were offered across **States and Union Territories**, with the highest being in **Maharashtra (14,694)**, followed by **Tamil Nadu (13,263)**.
इंटरनशिप **राज्य और संघ शासित क्षेत्रों** में दी गई थी, जिनमें से सबसे अधिक **महाराष्ट्र** में (**14,694**) और फिर **तमिलनाडु** में (**13,263**) थीं।
- The lowest offers were from **Lakshadweep**, with only **two offers**.
सबसे कम प्रस्ताव **लक्षद्वीप** से थे, जहाँ केवल **दो प्रस्ताव** थे।
- **Delhi** offered a total of **3,543 opportunities**.
दिल्ली ने कुल **3,543 अवसर** प्रदान किए थे।
- Companies will pay **₹500 per month** from their CSR funds, and the government will transfer **₹4,500** to the intern's Aadhaar-linked bank account.
कंपनियां **₹500 प्रति माह** अपने CSR फंड से भुगतान करेंगी, और सरकार **₹4,500** इंटरन के आधार लिंकड बैंक खाते में स्थानांतरित करेगी।
- A one-time grant of **₹6,000** for incidental expenses will be provided upon joining.
एक बार की **₹6,000** की ग्रांट आकस्मिक खर्चों के लिए इंटरन को शामिल होने पर प्रदान की जाएगी।
- For some applicants like **Kratika**, the stipend of **₹5,000** per month is a “huge bonus”, while others feel it may not be enough to sustain them.
कुछ आवेदकों के लिए जैसे **Kratika**, **₹5,000** प्रति माह की भता “बड़ी बोनस” है, जबकि अन्य महसूस करते हैं कि यह उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
- **Ravikant Tiwari**, a third-year student, expressed concerns that his expenses might exceed the stipend.
Ravikant Tiwari, तीसरे साल के छात्र, ने चिंता व्यक्त की कि उनके खर्च भत्ते से अधिक हो सकते हैं।





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

- Many students also applied for the **six-month vice-chancellor internship scheme** offering a stipend of **₹5,500 per month**.

कई छात्रों ने छह महीने की उपकुलपति इंटरनशिप योजना के लिए भी आवेदन किया, जो ₹5,500 प्रति माह की भत्ता प्रदान करती है।

PATRIOTIC IAS

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



Hasina continuing political activities from India: Yunus

Our dream is imagining a relationship like the European Union between India and Bangladesh, that's the direction we want to go; we are born to be together, we are twins, says the Chief Adviser

INTERVIEW

Muhammad Yunus


Suhasini Haidar
DHAKA

Bangladesh will pursue the extradition of ousted Prime Minister Sheikh Hasina from India, says Chief Adviser of its Interim Government Muhammad Yunus, admitting, however, that he had no objection to her party, the Awami League, contesting in elections. In an exclusive interview to *The Hindu* at his residence in Dhaka, Mr. Yunus spelt out his vision for ties with India and spoke about international concern over attacks on minorities.

You have finished 100 days as the Chief Adviser of the interim government in Bangladesh. How would you grade your government on two major issues – law and order and the economy?

Well, on law and order, we are still improving, but I would not say we have gotten an 'A' yet. On the other issue – I will say it's an A plus because we inherited a shattered economy. All our financial institutions, banking system had nearly collapsed. We were able to make our debt payments and that has improved our international image. We have gotten a tremendous amount of global support – the international community is doing business with us, assuring us for further collaboration and opening the door for investments.

Are you worried about the future, however? U.S. President-elect



SUHASINI HAIDAR

Donald Trump issued a strong statement criticising Bangladesh, and India is concerned about how Hindus are being targeted.

On minorities, [they are] not well informed. This is propaganda that's going on around the world. I don't think just because there's a new President in the U.S. means that everything will change. Foreign policies don't usually change because of a change in the President. It's a very good relationship that we have built over years with the U.S. Our hope is that it will be strengthened. In my first phone call with Prime Minister [Narendra] Modi, he said minorities are being treated badly in Bangladesh. I told him, don't fall for the propaganda – why don't you send your reporters? Go see case by case. It's an open country. Nothing is hidden here.

We have spoken to members of the minority community who do feel scared and targeted. There is a sense that what is coming to Bangladesh is a much more radical form of Islam than we have seen in Bangladesh in the last 16 years. Is there something that your government can do to reassure these communities?

Does this [image] fit me?

Every single member of the Cabinet either is a human rights activist who has suffered themselves, or an environmental activist, or a gender activist or other activists. There are women activists, do you think they will be championing the kind of rule that you are describing?

You have not so far met Prime Minister Modi, although you have spoken on the telephone...

We want to meet [PM Modi], because our relationship is something that has to be very close. We are neighbours, but not only neighbours. History, geography, language, culture brings us together. Many issues which brings us together – and we may disagree on some.

You have said that Ms. Hasina's presence in India since August 5 poses difficulties for ties...

[Former PM Hasina's] living in India, at least for the time being, is not a problem. But she is talking to Bangladeshi people and continuing her political activities, which is the problem.

In what way?

She is asking for them to come out and demonstrate on the streets of Dhaka and

other cities, and her audio is being circulated, telling them to hold pictures of [U.S. President-elect] Donald Trump [as shields], so that if the police stop them, they will say the Bangladesh government is against the U.S. This is interfering with the internal and external matters of another country.

Your government has not actually asked India for an extradition.

I think there are legal steps which we are taking towards that, but we have not come to that stage yet.

What if India does not accept the request, invoking clauses on political prosecutions?

Yes there are such clauses, but if the Indian government were to use them to keep [Ms. Hasina] there, that will not make a very happy relationship between us. Our interim government is a very short-lived government, but this issue would not be forgiven by any government that comes after us.

Do you foresee India-Bangladesh ties moving smoothly on other issues? Recently, we have seen some initiatives on energy connectivity, trade connectivity etc.

Our dream is imagining a relationship like the European Union [with freedom of movement and trade]. That's the direction we want to go. What you mentioned are good signs and the direction we would like to move in, but far away from what we want to achieve, which is union of very close ties. We are born to be together. We are twins.





Hasina continuing political activities from India: Yunus

हसीना भारत से राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रखेंगी: यूनूस

Our dream is imagining a relationship like the European Union between India and Bangladesh, that's the direction we want to go; we are born to be together, we are twins, says the Chief Adviser

हमारा सपना भारत और बांग्लादेश के बीच यूरोपीय संघ जैसे रिश्ते की कल्पना करना है, हम इसी दिशा में जाना चाहते हैं; हम एक साथ रहने के लिए पैदा हुए हैं, हम जुड़वां हैं, मुख्य सलाहकार कहते हैं

Bangladesh's Plan to Extradite Sheikh Hasina and Chief Adviser Yunus's Vision

बांग्लादेश का शेख हसीना की प्रत्यर्पण योजना और मुख्य सलाहकार यूनूस का दृष्टिकोण

- **Bangladesh** will pursue the extradition of ousted **Prime Minister Sheikh Hasina** from **India**, according to **Chief Adviser of its Interim Government Muhammad Yunus**, though he has no objection to her party, the **Awami League**, contesting in elections. बांग्लादेश भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना चाहता है, हालांकि इंटरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनूस ने कहा कि उन्हें उनकी पार्टी **आवामी लीग** के चुनावों में भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- In an exclusive interview to **The Hindu**, **Mr. Yunus** spoke about his vision for ties with **India** and international concern over attacks on minorities. द हिंदू के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, श्री यूनूस ने भारत के साथ संबंधों के अपने दृष्टिकोण और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता के बारे में बात की।
- When asked to grade his government on two major issues, **law and order** and the **economy**, Mr. Yunus said: जब उनसे उनकी सरकार को दो प्रमुख मुद्दों **कानून और व्यवस्था** और **अर्थव्यवस्था** पर ग्रेड देने को कहा गया, तो श्री यूनूस ने कहा:
 - On **law and order**, he said they are still improving but have not yet earned an **'A'**. कानून और व्यवस्था पर, उन्होंने कहा कि वे अभी भी सुधार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 'ए' नहीं प्राप्त किया है।
 - On the **economy**, he gave an **A+**, citing that they inherited a **shattered economy** and were able to improve the **banking system** and make **debt**





payments.

अर्थव्यवस्था पर, उन्होंने ए+ दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने एक टूटे हुए अर्थव्यवस्था को विरासत में प्राप्त किया था और वे बैंकिंग सिस्टम को सुधारने और ऋण भुगतान करने में सक्षम रहे थे।

- **Bangladesh** has received tremendous global support, and the international community is engaging in business with Bangladesh and opening the door for **further investments**.

बांग्लादेश को जबरदस्त वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश के साथ व्यापार कर रहा है और अगले निवेशों के लिए द्वार खोल रहा है।

- Regarding concerns about the future, **U.S. President-elect Donald Trump** issued a statement criticizing **Bangladesh**, and **India** raised concerns about the **targeting of Hindus**.

भविष्य को लेकर चिंताओं के संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प ने बांग्लादेश की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया, और भारत ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई।

- On the issue of minorities, Mr. Yunus dismissed the claims, calling them **propaganda** and assured that the situation is not as portrayed in international media.

अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, श्री युनूस ने इन दावों को प्रचार करार देते हुए आश्वासन दिया कि स्थिति अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जैसी दिखाई जा रही है, वैसी नहीं है।

- Mr. Yunus explained that the **foreign policy** does not change with a new U.S. president and expressed hope that the relationship with the U.S. will be strengthened.

श्री युनूस ने समझाया कि विदेश नीति नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ नहीं बदलती और उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया जाएगा।

- In his conversation with **Prime Minister Narendra Modi**, Mr. Yunus said he reassured him about the treatment of minorities in **Bangladesh**, urging him to send reporters to investigate cases personally.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत में, श्री युनूस ने उन्हें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उपचार के बारे में आश्वस्त किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से मामलों की जांच के लिए रिपोर्टर्स भेजने का आग्रह किया।

- Mr. Yunus emphasized that **Bangladesh** is an open country and that nothing is hidden from the world.

श्री युनूस ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश एक खुला देश है और दुनिया से कुछ भी छिपा नहीं है।

- Some members of the **minority community** feel scared and targeted, as they perceive an increasingly **radical form of Islam** emerging in **Bangladesh**.

कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य डर और लक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वे बांग्लादेश में उभरते हुए इस्लाम के अधिक उग्र रूप को महसूस करते हैं।

- When asked if his government could reassure these communities, Mr. Yunus pointed out that every member of the **Cabinet** is either a **human rights activist, environmental activist, or gender activist**.





जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार इन समुदायों को आश्वस्त कर सकती है, श्री युनूस ने बताया कि कैबिनेट का प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता, या लिंग कार्यकर्ता है।

- He also mentioned that many women activists are part of the government, implying that they would not support the kind of rule described by critics.

उन्होंने यह भी कहा कि कई महिला कार्यकर्ता सरकार का हिस्सा हैं, यह संकेत देते हुए कि वे आलोचकों द्वारा वर्णित शासन का समर्थन नहीं करेंगी।

- Mr. Yunus has not yet met with **Prime Minister Modi**, although they have spoken over the phone.

श्री युनूस ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं की है, हालांकि उन्होंने फोन पर बातचीत की है।

Bangladesh's Relationship with India and Challenges Involved

बांग्लादेश और भारत के संबंध और इसमें शामिल चुनौतियां

- **Bangladesh** desires a **very close relationship** with **India**, as they are not just neighbors, but are united by **history, geography, language, and culture**.

बांग्लादेश भारत के साथ एक बहुत करीबी संबंध चाहता है, क्योंकि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि इतिहास, भूगोल, भाषा और संस्कृति द्वारा एकजुट हैं।

- Many issues bind them together, although there might be **disagreements** on some.

कई मुद्दे उन्हें एक साथ बांधते हैं, हालांकि कुछ पर असहमतियां हो सकती हैं।

- Regarding the presence of **Sheikh Hasina** in **India** since **August 5**, **Muhammad Yunus** stated that her staying in India is not a problem, but her political activities and messaging to the **Bangladeshi people** are problematic.

शेख हसीना का भारत में 5 अगस्त से रहना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक गतिविधियां और बांग्लादेशी लोगों को संदेश भेजना समस्याग्रस्त है, यह मुहम्मद युनूस ने कहा।

- **Sheikh Hasina** is allegedly urging her supporters in **Bangladesh** to demonstrate and hold **Donald Trump** pictures as shields against the **Bangladesh police**.

शेख हसीना कथित तौर पर अपने समर्थकों से बांग्लादेश में प्रदर्शन करने और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कह रही हैं, ताकि पुलिस उन्हें रोके तो वे कह सकें कि बांग्लादेश सरकार अमेरिका के खिलाफ है।

- **Mr. Yunus** clarified that the **Bangladesh government** has not yet formally asked **India** for the **extradition** of **Sheikh Hasina** but is taking **legal steps** towards it.

श्री युनूस ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना का ** प्रत्यर्पण** नहीं मांगा है, लेकिन वे इसके लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं।

- If **India** invokes **political prosecution clauses** to reject the extradition request, it would harm the relationship between the two countries.





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

यदि भारत राजनीतिक अभियोजन धाराओं का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकृत करता है, तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को नुकसान होगा।

- **Bangladesh's interim government** is short-lived, but **Mr. Yunus** warned that such an issue would not be forgiven by any future government.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कार्यकाल छोटा है, लेकिन श्री युनूस ने चेतावनी दी कि इस तरह का मुद्दा भविष्य की किसी भी सरकार द्वारा माफ नहीं किया जाएगा।

- Regarding **India-Bangladesh relations**, **Mr. Yunus** expressed optimism about recent initiatives like **energy connectivity** and **trade connectivity**, though he envisions a deeper bond.

भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में, श्री युनूस ने ऊर्जा कनेक्टिविटी और व्यापार कनेक्टिविटी जैसी हाल की पहलों के प्रति आशावाद व्यक्त किया, हालांकि उनका सपना एक गहरे संबंध की ओर है।

- **Mr. Yunus** dreams of a relationship similar to the **European Union**, where there is **freedom of movement** and **trade**.

श्री युनूस का सपना है कि बांग्लादेश और भारत के संबंध यूरोपीय संघ जैसे हों, जहां आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता हो।

- The direction taken by **India** and **Bangladesh** so far is positive, but both countries are still far from achieving a **close union** of ties.

भारत और बांग्लादेश द्वारा अब तक उठाए गए कदम सकारात्मक हैं, लेकिन दोनों देश अब भी एक करीबी संघ के संबंधों को प्राप्त करने से दूर हैं।

- **Mr. Yunus** believes that **India** and **Bangladesh** were **born to be together** and are **twins**.

श्री युनूस मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश साथ रहने के लिए जन्मे हैं और वे जुड़वां हैं।

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





SUDHAKARA JAIN

Tanvi Patri – Indian badminton’s latest rising star

The 13-year-old from Odisha has tasted astonishing success in the last few months, winning the Asian U-15 crown, and the U-15 and U-17 national titles; coaches believe that if Tanvi can make good on her promise, sky is the limit

N. Sudarshan
BENGALURU

At the entrance of the sprawling Padukone-Dravid Centre for Sports Excellence in Bengaluru, a giant billboard showcasing the best achievements of the Centre’s wards welcomes visitors. Some of India’s most noted athletes, including Lakshya Sen, have had their photos splashed across, lending an additional circle of light to their already luminous halo.

The latest to be given this prize of place is Tanvi Patri, the 13-year-old from Odisha who won the Asian U-15 girls’ singles title at Chengdu, China in August. A month later, at the sub-junior Nationals in Chennai, the Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) trainee clinched the U-15 and U-17 singles titles. Such was her dominance that in China she did not lose a single game across five matches. In Chennai, she dropped one across 12.

To be fair, Tanvi is not the first Indian girl to triumph in Asia in recent times: Samiya Inad Farooqui and Tasnim Mir have both notched up victories, in 2017 and 2019 respectively.

But what’s astonishing about Tanvi’s success is her quality to not fall off the emotional cliff after winning one big tournament. It is this repeatability, coupled with the desire to constantly improve, that is perhaps telling her coaches and parents that she is really made for the big stage.

Tanvi has had a beginning in badminton unlike many others’. She picked up the game as a six-year-old in China, where her father Rabinarayan Patri was working for an IT firm near Shanghai. A recreational player in his college days, Rabinarayan started playing the racquet sport in China and Tanvi just followed him. With English-medium schools hard to find, Tanvi played sport full-time while being home-schooled by her mother, Satabala Panda, also an IT professional.

Strong foundation

“Till around eight-and-half years, she worked very hard,” Rabinarayan tells *The Hindu*. “We practised almost daily. Not only badminton, but even swimming and skating. The infrastructure there was outstanding and they were very welcoming. She won practically every badminton tournament she played, all the way up to the U-12 category.”

“I then found a couple of coaches there and they were very good. She received the basic foundation from them. It was not a very big academy; more like a club. But those two coaches had enough time



SUDHAKARA JAIN

and they spent that with Tanvi”.

When they saw Tanvi developing quickly, her training was shifted to Shanghai where there were senior coaches. They drove Tanvi 60 odd kilometres daily to Shanghai, made her train for five to six hours and get her back home in the evening. This went on for well over two years and celebrated Chinese coach Jiang Yong Yi, who has tutored many Olympic and World medalists, was among Tanvi’s early trainers.

When the family had to return to India after Covid struck, it was this rigorous mentoring that held Tanvi in good stead. Jiang, in fact, has made multiple visits to the PPBA to conduct coaching clinics, for the legendary Prakash Padukone and Dronacharya Awardee and PPBA director Vimal Kumar hold Jiang in high regard. In 2022, Rabinarayan sent a few videos of Tanvi for enrollment at PPBA and she was quickly absorbed after a few trial sessions.

Fearless and error-free

“It was his ability to play without making mistakes that impressed us,” recalls Vimal. “This is what we observed in Lakshya, Saina [Nelwal] and others. Even at a very small age, even when they did not have the strength, they somehow managed to keep the shuttle inside the court. The second thing we liked was the temperament. One should not be scared about playing anybody. That thrill was there, to just play and compete”. To punch above her weight and compete to higher age categories without fear is something Tanvi has done splendidly so far. It is a trait that binds her to the very

best in Indian badminton – Saina and PV. Sindhu.

In fact on Sunday, Tanvi made the final in her maiden senior tournament, the CM Trophy India International Challenge in Raipur, before losing to over three close games to Rakshitha Kamraj, four years her senior. From the qualifying rounds, she won seven matches in all, including the straight-games semifinal victory over 20-year-old Isharani Baruah, one of the best Indian youngsters.

“Tanvi has that staying power,” opines Vimal. “Badminton is fast and intense. After you play a long rally, you are breathing to be normal for the next two or three points before gathering yourself.”

“But one has to understand that when you are playing a tough rally, your opponent will also be gasping for breath. In that next point, can you do better without catching a break? If you have that ability at a young age, that’s a plus. That’s what has helped her across age groups”.

Umendra Singh Rana, a SAI coach who has been at PPBA for nearly a decade, says that Tanvi is a dream student when it comes to understanding and implementing strategies without letting competitive pressure get to her.

“She is quite a quick learner,” Rana observes. “Whatever input she’s getting from you [the coach], she tries it immediately in the match situation. She’s also very consistent and will not make many mistakes.”

“There won’t be frequent changes in playing patterns which may lead to mistakes and the pressure being released. Whatever she does in practice, we can always expect her to do better in the competition. That is very rare,” he adds.

Tanvi’s fledgling teenage promise comes at a time when Indian women’s singles is looking for the next big star after Saina and Sindhu to keep the conveyor belt of success moving. At the Uber Cup earlier this year in Chengdu, there were a few green shoots when a young team,

sans Sindhu, qualified for the last eight. Tanvi’s rise is yet another green strand, and if not for her tender age and resultant ineligibility, she was even in line to be selected for the India U-19 team for the Junior World Championships that were held in Nanchang (China) recently.

But Vimal, ever the man to keep his students grounded, believes Tanvi’s attainments so far are at best small indicators of the seemingly endless possibilities, and that she has a mighty long way to go.

Growth opportunities

The trio of Rabinarayan, Vimal and Rana stresses that only with exposure to higher levels of competition and by playing more in countries such as China, Japan, South Korea, Thailand and Malaysia will Tanvi grow further.

“She needs to improve her strength,” Vimal points out. “To build on anything in badminton, you have to have good endurance and she’s reasonably good there. But against an opponent with a little deception, she struggles a bit. This is something you can improve with better strength.”

“A good singles player should be good at the net, because only by approaching the net and playing a tight tumble does one create opportunities. She needs work there. For a small girl, the downward punch is quite good. But she can get better,” he adds.

Regardless, Vimal concedes that Tanvi is quite different to the scores of girls he has coached. “Players like her [Tanvi] just come,” he says with a smile. “The likes of Saina, Sindhu... they just come. How you can help them realise their potential is the key. “There are a lot of different off-court factors, but if Tanvi can survive all that, she can be really really good. I don’t know whether she will be an Olympic medalist; that is a long way to go. But the potential is there to become a very good international player”.

THE GIST

▼ Tanvi picked up badminton as a six-year-old in China, where her father was working. Noted coach Jiang was one of her trainers and she made a mark by winning multiple titles up to U-12 category

▼ The 13-year-old and her family shifted to India in 2020 after Covid struck. She joined the Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) in 2022, and now trains under Dronacharya Awardee Vimal and his team

▼ Coaches at PPBA believe Tanvi is a quick-learner and match-aware. Her endurance and ability to stay in long rallies will keep her in good stead, they feel. Recently, she finished runner-up in her maiden senior tournament

▼ Tanvi can further grow and realise her potential by competing more in East Asia, and with improvements in her strength and conditioning and net game, say experts



SUDHAKARA JAIN





Tanvi Patri – Indian badminton's latest rising star

तन्वी पत्री – भारतीय बैडमिंटन की नवीनतम उभरती हुई स्टार

The 13-year-old from Odisha has tasted astonishing success in the last few months, winning the Asian U-15 crown, and the U-15 and U-17 national titles; coaches believe that if Tanvi can make good on her promise, sky is the limit

ओडिशा की 13 वर्षीय तन्वी ने पिछले कुछ महीनों में आश्चर्यजनक सफलता का स्वाद चखा है, एशियाई अंडर-15 का ताज और अंडर-15 और अंडर-17 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं; कोचों का मानना है कि अगर तन्वी अपने वादे पर खरी उतरती है, तो उसके लिए आसमान ही आसमान है

Tanvi Patri's Rise in Badminton

तैनवी पत्री की बैडमिंटन में उन्नति

- At the entrance of the **Padukone-Dravid Centre for Sports Excellence** in **Bengaluru**, a giant billboard showcases the **best achievements** of the Centre's wards, including **Lakshya Sen**.
बेंगलुरु में स्थित पदुकोण-ड्रविड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के प्रवेश द्वार पर एक विशाल बिलबोर्ड सेंटर के छात्रों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्रदर्शित करता है, जिसमें लक्ष्य सेन भी शामिल हैं।
- The latest addition to the billboard is **Tanvi Patri**, the **13-year-old from Odisha**, who won the **Asian U-15 girls' singles title** at **Chengdu, China** in **August**.
इस बिलबोर्ड पर नवीनतम नाम तैनवी पत्री का है, जो उड़ीसा से 13 वर्षीय हैं और जिन्होंने चेंगदू, चीन में अगस्त में एशियाई U-15 लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीता।
- A month later, at the **sub-junior Nationals** in **Chennai**, Tanvi won the **U-15** and **U-17 singles titles**.
एक महीने बाद, चेन्नई में सब-जूनियर नेशनल्स में, तैनवी ने U-15 और U-17 सिंगल्स टाइटल जीते।
- In **China**, Tanvi did not lose a single game across **five matches**. In **Chennai**, she dropped one game out of **12**.





चीन में, टैनवी ने पाँच मैचों में से कोई भी गेम नहीं हारा। जबकि चेन्नई में, उन्होंने 12 मैचों में से केवल एक गेम खोया।

- Tanvi is not the first **Indian girl** to win an **Asian title**; **Samiya Imad Farooqui** (2017) and **Tasnim Mir** (2019) have also won similar titles.

टैनवी पहली **भारतीय लड़की** नहीं हैं जिन्होंने **एशियाई खिताब** जीता है; **समिया इमाद फारूकी** (2017) और **तसनीम मीर** (2019) ने भी ऐसे ही खिताब जीते हैं।

- What sets Tanvi apart is her ability to not fall off the emotional **cliff** after winning one big tournament, and her **repeatability** and desire to constantly improve.

टैनवी को विशेष बनाता है उनकी क्षमता कि वह एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने के बाद **भावनात्मक रूप से डूबती नहीं हैं**, और उनकी **पुनरावृत्ति** और निरंतर सुधार की इच्छा।

- Tanvi's journey in badminton began at the age of **six** in **China**, where her father, **Rabinarayan Patri**, was working.

टैनवी की बैडमिंटन यात्रा **छह वर्ष** की आयु में **चीन** में शुरू हुई, जहाँ उनके पिता, **रबिनारायण पट्टी**, काम कर रहे थे।

- **Rabinarayan** started playing badminton in **China** as a recreational player and Tanvi followed him.

रबिनारायण ने **चीन** में एक शौकिया खिलाड़ी के रूप में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और टैनवी ने उनका अनुसरण किया।

- With limited availability of **English-medium schools**, Tanvi played sports full-time while being **home-schooled** by her mother, **Sailabala Panda**, an **IT professional**.

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की कमी के कारण, टैनवी ने पूरी तरह से खेलों में समय बिताया और उनकी माँ, **सैलाबला पांडा** (जो एक **IT पेशेवर** हैं) द्वारा **होम-स्कूलिंग** की गई।

- From the age of **eight-and-a-half**, Tanvi practiced daily, not only badminton but also **swimming** and **skating**, with excellent infrastructure available.

आठ और आधे वर्ष की उम्र से, टैनवी ने रोज अभ्यास किया, न केवल बैडमिंटन, बल्कि **स्विमिंग** और **स्केटिंग** भी, और वहाँ का बुनियादी ढांचा उत्कृष्ट था।

- Tanvi won practically every badminton tournament in the **U-12** category in China.

टैनवी ने चीन में **U-12** श्रेणी के लगभग हर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत हासिल की।

- Her early coaching was at a **small academy**, where she received a strong foundation from two coaches who dedicated time to her development.

उनका प्रारंभिक कोचिंग एक **छोटी अकादमी** में हुई, जहाँ उन्हें दो कोचों से मजबूत नींव मिली जिन्होंने उनके विकास में समय दिया।

Tanvi Patri's Rigorous Training and Success

टैनवी पट्टी की कड़ी ट्रेनिंग और सफलता





- When Tanvi's development progressed quickly, her training was shifted to **Shanghai**, where senior coaches were available.
जब टैनवी का विकास तेज़ी से हुआ, तो उनकी ट्रेनिंग **शंघाई** में स्थानांतरित कर दी गई, जहां वरिष्ठ कोच मौजूद थे।
- Her parents drove Tanvi **60 kilometres daily** to Shanghai for her training, which lasted **five to six hours**, and they brought her back home in the evening.
उनके माता-पिता **60 किलोमीटर रोज़** टैनवी को शंघाई ले जाते थे, जहां उनकी ट्रेनिंग **पाँच से छह घंटे** चलती थी, और फिर शाम को उसे घर वापस ले आते थे।
- This routine continued for over **two years**, with celebrated **Chinese coach Jiang Yong Yi**, who has tutored Olympic and World medallists, among Tanvi's early trainers.
यह दिनचर्या **दो वर्षों** तक जारी रही, और प्रसिद्ध **चीन के कोच जियांग योंग यी**, जिन्होंने ओलंपिक और विश्व पदक विजेताओं को प्रशिक्षित किया है, टैनवी के प्रारंभिक कोचों में से थे।
- When the family had to return to **India** after **Covid**, it was this **rigorous mentoring** that helped Tanvi stay in good form.
जब परिवार को **कोविड** के बाद **भारत** लौटना पड़ा, तो यही **कड़ी मेंटरिंग** थी जिसने टैनवी को अच्छे रूप में बनाए रखा।
- **Jiang Yong Yi** has made multiple visits to the **Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA)** to conduct coaching clinics, as both **Prakash Padukone** and **Vimal Kumar** hold him in high regard.
जियांग योंग यी ने **प्रकाश पदुकोण बैडमिंटन अकादमी (PPBA)** में कोचिंग क्लिनिक आयोजित करने के लिए कई बार यात्रा की है, क्योंकि **प्रकाश पदुकोण** और **विमल कुमार** उन्हें उच्च मान्यता देते हैं।
- In **2022**, Rabinarayan sent videos of Tanvi to PPBA, and she was quickly accepted after a few trial sessions.
2022 में, रबिनारायण ने टैनवी के वीडियो **PPBA** भेजे और कुछ ट्रायल सत्रों के बाद उसे जल्दी से स्वीकार कर लिया गया।
- Tanvi impressed coaches at PPBA with her ability to play without making mistakes, a trait they had observed in top players like **Lakshya**, **Saina** and others.
टैनवी ने **PPBA** के कोचों को अपनी गलती किए बिना खेलने की क्षमता से प्रभावित किया, यह गुण उन्होंने **लक्ष्य**, **साइना** और अन्य शीर्ष खिलाड़ियों में देखा था।
- Tanvi's temperament to compete fearlessly, even against older players, sets her apart and binds her to the best in Indian badminton, like **Saina** and **P.V. Sindhu**.
टैनवी का **निर्भीक** प्रतिस्पर्धा करने का स्वभाव, यहाँ तक कि बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ, उसे भारतीय बैडमिंटन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों जैसे **साइना** और **P.V. सिंधु** से जोड़ता है।
- In her maiden senior tournament, the **CM Trophy India International Challenge in Raipur**, Tanvi reached the final before losing in three close games to **Rakshitha Ramraj**, who is four years older.





अपनी पहली वरिष्ठ टूर्नामेंट **CM ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज** में रायपुर में, टैनवी फाइनल तक पहुंचीं, फिर **रक्षिता रामराज** से तीन कड़ी खेलों में हार गईं, जो उनसे चार साल बड़ी थीं।

- Tanvi won **seven matches** from the qualifying rounds, including a straight-games semifinal victory over **Isharani Baruah**, one of the best young Indian players.

टैनवी ने क्वालीफाइंग राउंड से **सात मैच** जीते, जिसमें **ईशरानी बरुआ** पर सीधे गेम्स में सेमीफाइनल जीत शामिल थी, जो एक बेहतरीन भारतीय युवा खिलाड़ी हैं।

- Coach **Vimal Kumar** praises Tanvi for her **staying power**, crucial in **fast-paced** and **intense badminton rallies**.

कोच **विमल कुमार** टैनवी की **स्थायित्व शक्ति** की सराहना करते हैं, जो तेज़ और **गहन बैडमिंटन रैलियों** में महत्वपूर्ण है।

- Tanvi's ability to push through tough rallies without needing a break at a young age gives her an edge over opponents in every age group.

टैनवी की यह क्षमता कि वह कठिन रैलियों को बिना ब्रेक लिए खेल सके, उसे हर आयु वर्ग में प्रतिद्वंद्वियों पर एक बढ़त देती है।

Tanvi Patri's Progress and Potential

टैनवी पट्टी की प्रगति और संभावनाएं

- **Umendra Singh Rana**, a SAI coach who has been at **PPBA** for nearly a decade, describes Tanvi as a dream student who can quickly understand and implement strategies without getting affected by competitive pressure.

उमंद्र सिंह राणा, एक SAI कोच जो लगभग एक दशक से **PPBA** में हैं, ने टैनवी को एक आदर्श छात्रा बताया जो जल्दी से रणनीतियों को समझती और लागू करती है, बिना प्रतिस्पर्धी दबाव के प्रभावित हुए।

- Rana observes that Tanvi is a **quick learner**, immediately applying any input she receives from coaches into the match. She is also very consistent and makes very few mistakes.

राणा ने देखा कि टैनवी **जल्दी सीखने वाली** हैं और जो भी इनपुट उन्हें कोच से मिलता है, वह उसे तुरंत मैच में लागू कर देती हैं। वह बहुत **संगत** हैं और बहुत कम गलतियाँ करती हैं।

- According to Rana, Tanvi does not frequently change her playing patterns, which helps her avoid mistakes and keep pressure in check.

राणा के अनुसार, टैनवी अपने खेलने के तरीके को बार-बार नहीं बदलतीं, जिससे वह गलतियों से बचती हैं और दबाव को नियंत्रित रखती हैं।

- What Tanvi practices in training, she always does better in competitions, which is rare.

जो टैनवी ट्रेनिंग में अभ्यास करती हैं, वह प्रतियोगिताओं में हमेशा उससे बेहतर करती हैं, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है।

- Tanvi's rising success comes at a time when **Indian women's singles** is looking for the next big star after **Saina** and **Sindhu**.





टैनवी की बढ़ती सफलता उस समय हो रही है जब **भारतीय महिला सिंगल्स** को साइना और सिंधु के बाद अगले बड़े स्टार की तलाश है।

- At the **Uber Cup** earlier this year in **Chengdu**, a young team, without Sindhu, qualified for the last eight, signaling growth in Indian women's badminton.

इस साल के **उबर कप** में **चेंगदू** में, एक युवा टीम ने **सिंधु** के बिना अंतिम आठ में स्थान प्राप्त किया, जो भारतीय महिला बैडमिंटन में वृद्धि का संकेत है।

- Tanvi's rise is another positive sign, and she was even in line to be selected for the **India U-19 team** for the **Junior World Championships** in **Nanchang, China**, but her age made her ineligible.

टैनवी की वृद्धि एक और सकारात्मक संकेत है, और वह **भारत U-19 टीम** के लिए **जूनियर विश्व चैंपियनशिप** में **नांचांग, चीन** में चयन के लिए लाइन में थीं, लेकिन उनकी आयु के कारण वह योग्य नहीं थीं।

- **Vimal Kumar**, PPBA director, believes that Tanvi's achievements so far are small indicators of her potential, and she has a long way to go.

विमल कुमार, PPBA के निदेशक, मानते हैं कि टैनवी की अब तक की उपलब्धियाँ उनके संभावित भविष्य के छोटे संकेत हैं, और अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है।

- Rabinarayan, Vimal, and Rana all emphasize that **Tanvi needs more exposure** to higher levels of competition in countries like **China, Japan, South Korea, Thailand, and Malaysia** to grow further.

रबिनारायण, विमल और राणा तीनों इस बात पर जोर देते हैं कि **टैनवी को अधिक अनुभव** की आवश्यकता है, ताकि वह **चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड** और **मलेशिया** जैसे देशों में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा से और आगे बढ़ सकें।

- **Vimal Kumar** points out that Tanvi needs to improve her strength and endurance to compete against deceptive opponents.

विमल कुमार ने यह संकेत दिया कि टैनवी को अपनी ताकत और सहनशक्ति को सुधारने की आवश्यकता है ताकि वह चालाक विरोधियों से मुकाबला कर सकें।

- Vimal also notes that a good singles player should be good at the **net**, creating opportunities with tight tumbles. Tanvi needs work on this aspect.

विमल यह भी कहते हैं कि एक अच्छे सिंगल्स खिलाड़ी को **नेट** में अच्छा होना चाहिए, ताकि वह तंग **टम्बल्स** से अवसर बना सके। टैनवी को इस पहलू पर काम करने की आवश्यकता है।

- Despite needing improvement in some areas, **Vimal Kumar** believes that Tanvi is quite different from the many girls he has coached.

कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता होने के बावजूद, **विमल कुमार** मानते हैं कि टैनवी उन कई लड़कियों से काफी अलग हैं जिन्हें उन्होंने कोचिंग दी है।

- Vimal adds that players like Tanvi and top players like **Saina** and **Sindhu** come naturally, and the key is to help them realize their potential.





PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur

Contact Number: 9971932488

विमल यह भी कहते हैं कि टैनवी जैसी खिलाड़ी और साइना और सिंधु जैसे शीर्ष खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से आते हैं, और कुंजी यह है कि उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने में मदद करें।

- Vimal concludes by saying that while **Tanvi's potential is there** to become a very good international player, whether she will become an **Olympic medallist** is a long way off.

विमल निष्कर्ष में कहते हैं कि जबकि टैनवी

PATRIOTIC IAS

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

